



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 17—दिसम्बर 23, 2005 (अग्रहायण 26, 1927)  
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 17—DECEMBER 23, 2005 (AGRAHAYANA 26, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

सेना शाखा

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 2005

सं. 597, दिनांक 10 नवम्बर 2005, राष्ट्रपति निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(से. के पद पर 08 दिसम्बर 2001 से)

निम्नलिखित अधिकारी को भारत सरकार के राजपत्र, जोकि दिनांक 26 अक्टूबर 2002 को प्रकाशित हुआ है, में सम्मिलित किया जाता है :--

रजत त्यागी (आईसी-61954एफ), इन्फैंट्री ज्येष्ठता अखिलेश कुमार शाल (आईसी-61953वाई), इंजीनियर के नीचे प्रदर्शित किया जाए।

निम्नलिखित जेण्टलमैन कैडेट्स जोकि 98 टीजीसी और 12ए यूईएस पाठ्यक्रम जोकि 97 टीजीसी और 12 यूईएस पाठ्यक्रम के रेलीगेटेड जीसी) के हैं, जिनके जीसी संख्या के पहले टी (प्रदर्शित टीजीसी) और यू (प्रदर्शित यूईएस) उपसर्ग लगे हुए हैं, को 10 दिसम्बर 2004 (पूर्वाह्न) से

विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टीजीसी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93 परिशोधित सेना अनुदेश 12/96 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यूईएस पाठ्यक्रम वालों को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 11 दिसम्बर 2002 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टीजीसी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93 परिशोधित सेना अनुदेश 12/96 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यूईएस पाठ्यक्रम वालों को दो वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है :--

आई एम ए संख्या, नाम, आईसी संख्या, आर्म्स/मर्चिस

टी/6141 संजीव शुक्ला, 64740 डब्ल्यू--सिग्नल्स

यू/510 अर्जुन पोपली, 64741वाई--ईएमई

टी/36086 परीक्षित मेहरा, 64742एफ--इंजीनियर्स

टी/6130 मो. सागिर अली, 64743के--इंजीनियर्स

यू/507 बिराज सिंह जोहर, 64745पी--सिग्नल्स

टी/6131 चिरोम काजू, 64746एक्स--ईएमई

टी/6139 अमरीक सिंह, 64747ए--आर्टी  
 टी/6127 विनय यादव, 64748एच--एसी  
 टी/6162 अमित कादियान, 64749एल--इंजीनियर्स  
 टी/6068 जयंत बाबन खेरे, 64750ए--ईएमई  
 टी/6126 राजेश चौधरी, 64751एच--एसी  
 टी/6098 नलिन शुक्ला, 64752एल--आर्टी  
 टी/6132 अमोल मोने, 64754डब्ल्यू--सिग्नल्स  
 टी/6090 मनीष कपिला, 64755वाई--आर्टी  
 टी/6183 मनीष कोहली, 64757के--आर्टी  
 टी/6109 वर्मा क्षितिज सुधीर, 64758एम--इंजीनियर्स  
 टी/6171 सांखे समीर पुरुषोत्तम, 64759पी--एडी आर्टी  
 टी/6184 हरकीरत एस विकर्ण, 64761एम--इंजीनियर्स  
 यू/511 अंशुल वर्मा, 64762पी--सिग्नल्स  
 टी/6110 हरि कृष्णन एस, 64763एक्स--आर्टी  
 टी/6133 रंधावा सिंह राणा, 64764ए--आर्टी  
 टी/6157 अनुप मिश्रा, 64765एच--इंजीनियर्स  
 टी/6177 विनीत कोहली, 64766एल--एडी आर्टी  
 टी/6180 गौरव भारद्वाज, 64767एन--आर्टी  
 टी/6138 आलोक मिश्रा, 64768डब्ल्यू--एसी  
 टी/6164 रोहित शर्मा, 64769वाई--एसी  
 टी/6121 मनोज सोमनाथन, 64770एन--आर्टी  
 टी/6185 मोनेश कुमार बाधरे, 64771डब्ल्यू--आर्टी  
 टी/6179 अमरजीत सिंह, 64772वाई--इंजीनियर्स  
 टी/6159 अमित डीगरा, 64773एफ--सिग्नल्स  
 टी/6147 विजय कुमार शर्मा, 64774के--ईएमई  
 टी/6155 बोरकर कुनाल श्रीधर, 64775एम--इंजीनियर्स  
 टी/6135 मथुरा नाथ डे, 64776पी--ईएमई  
 टी/6166 कमलदीप सिंह, 64777एक्स--एडी आर्टी  
 टी/6123 के नागेश्वर राव, 64778ए--ईएमई  
 टी/6169 मांजरेकर दर्शन सदाशिव, 64779एच--एडी आर्टी  
 टी/6170 हवलदार ईरशाद आई, 64780एक्स--एसी  
 टी/6142 अरुण सिसोया, 64781ए--आर्टी  
 टी/6137 संदीप सिंह, 64782एल--इंजीनियर्स  
 टी/6182 अमितोज सिंह, 64783एन--एडी आर्टी

टी/6151 शाश्वत कुमार सिंह, 64784एन--इंट  
 टी/6128 कृष्ण गोपाल यादव, 64785डब्ल्यू--आर्टी  
 टी/6143 नजारे विनय विलास, 64786वाई--इंट  
 टी/6153 हेमन्त के सोनी, 64787एफ--सिग्नल्स  
 टी/6129 धर्मेन्द्र सिंह राठौर, 64788के--सिग्नल्स  
 टी/6117 एस के प्रकाश, 64789एम--आर्टी  
 टी/6154 अभिनव ऋषि, 64791के--सिग्नल्स  
 टी/6146 तरुण, 64792एम--सिग्नल्स  
 टी/6176 दिव्य कुमार, 64793पी--ईएमई  
 टी/6168 अमर्त्य घोष, 64794एक्स--आर्टी  
 यू/466 अंकुर गर्ग, 64795ए--इंजीनियर्स  
 टी/6172 मोहिंदरपाल सिंह घई, 64796एच--इंजीनियर्स  
 टी/6125 राहुल करवासरा, 64797एल--आर्टी  
 टी/6163 सुरप्रीत सिंह, 64798एन--ईएमई  
 टी/6174 पवन कुमार जी, 64799डब्ल्यू--इंजीनियर्स  
 टी/6167 सौपतिक मित्रा, 64800ए--आर्टी  
 टी/6161 चपालामडुगु विजय, 64802एल--एसी  
 टी/6152 अविषेक घोष, 64803एन--इंजीनियर्स  
 टी/6181 सुधांशु रोहिला, 64804डब्ल्यू--ईएमई  
 टी/6144 आदर्श कुमार, 64805वाई--आर्टी  
 टी/6186 पुष्पेन चन्द्रा, 64808एम--इंजीनियर्स  
 टी/6149 पाठक आशीष चन्द्रशेखर, 64809पी--ईएमई  
 ओ/6173 के कन्नन, 64810के--सिग्नल्स

2. निम्नलिखित आफिसर्स को भी सेना अनुदेश 105/61 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत से 10 दिसम्बर 2004 (पूर्वाह्न) ले. के पद पर स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है :-

टी/6134 अविनाश रावल, 64756एफ--ईसी  
 टी/6165 बिपिन कुमार शुक्ला, 64780के, ईसी  
 टी/6148 के अनूप नॉयर, 64790एफ--ईसी  
 टी/6145 लालनुनसियामा, 64807के--ईसी

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित जेण्टलमैन कैंडेड्स जोकि, 98 टीजी पाठ्यक्रम के हैं को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत पूर्व आयोग प्रशिक्षण अर्वाधि के लिये, जोकि भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणार्थ हैं, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :-

आईएमए संख्या, नाम, एसएस संख्या, आर्म/सर्विस, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि

98 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम

- टी/6123 के नागेश्वर राव, 41095ए, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6125 राहुल करवासरा, 41097एल, ईएमई--16 जनवरी 2004  
 टी/6126 राजेश चौधरी, 41098एन, ईएमई--16 जनवरी 2004  
 टी/6127 विनय यादव, 41099डब्ल्यू, ईएमई--16 जनवरी 2004  
 टी/6128 कृष्ण गोपाल यादव, 41100ए, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6129 धर्मन्द्र सिंह राठौर, 41101एच, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6130 मो. सागिर अली, 41102एल, इंजीनियर्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6131 विरोम काजू, 41103एन, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6132 अमोला मोने, 41104डब्ल्यू, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6133 रंधावा सिंह राणा, 41105वाई, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6135 मथुरा नाथ डे, 41106एफ, ईएमई--16 जनवरी 2004  
 टी/6137 संदीप सिंह, 41108एम, इंजीनियर्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6138 आलोक मिश्रा, 41109पी, ईएमई--16 जनवरी 2004  
 टी/6139 अमरीक सिंह, 41110के, ईएमई--16 जनवरी 2004  
 टी/6141 संजीव शुक्ला, 41112पी, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6142 अरुण सिरौही, 41113एक्स, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6143 नजारे विनय विलास, 41114ए, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6144 आदर्श कुमार, 41115एच, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6146 तरुण, 41116एल, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6147 विजय कुमार शर्मा, 41117एन, ईएमई--16 जनवरी 2004  
 टी/6149 पाठक आशीष चन्द्रशेखर, 41118डब्ल्यू, ईएमई--16 जनवरी 2004  
 टी/6151 शाश्वत कुमार सिंह, 41120एन, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6152 अविषक घोष, 41121डब्ल्यू, इंजीनियर्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6153 हेमन्त के सोनी, 41122वाई, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6154 अभिनव त्रिधि, 41123एफ, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6155 बोरकर कुनाल श्रीधर, 41124के, ईएमई--16 जनवरी 2004  
 टी/6157 अनूप मिश्रा, 41125एम, इंजीनियर्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6159 अमित डीगरा, 41127एक्स, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6161 चपालामडुगु विजय, 41129एच, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6162 अमित कादयान, 41130एक्स, ईएमई--16 जनवरी 2004  
 टी/6163 सुरप्रीत सिंह, 41131ए, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004

- टी/6164 रोहित शर्मा, 41132एच, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6166 कमलदीप सिंह, 41133एल, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6167 सोपतिक मित्रा, 41134एन, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6168 अमर्त्य घोष, 41135डब्ल्यू, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6169 मांजरेकर दर्शन सदाशिव, 41136वाई, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6170 हवलदार ईरशाद आई, 41137एफ, ईएमई--16 जनवरी 2004  
 टी/6171 साखे समीर पुरुषोत्तम, 41138के, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6172 मोहिंदर पाल सिंह घई, 41139एम, इंजीनियर्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6173 के कन्नन, 41140एफ, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6174 पवन कुमार जी, 41141के, इंजीनियर्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6176 दिव्य कुमार, 41143पी, ईएमई--16 जनवरी 2004  
 टी/6177 विनीत कोहली, 41144एक्स, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6179 अमरजीत सिंह, 41146एच, ईएमई--16 जनवरी 2004  
 टी/6180 गौरव भारद्वाज, 41147एल, ईएमई--16 जनवरी 2004  
 टी/6181 सुधांशु रोहिला, 41148एन, ईएमई--16 जनवरी 2004  
 टी/6182 अमितोज सिंह, 41149डब्ल्यू, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6183 मनीष कोहली, 41150एल, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6184 हरकीरत एस विर्क, 41151एन, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004  
 टी/6185 मोनेश कुमार बाथरे, 41152डब्ल्यू, ईएमई--16 जनवरी 2004  
 टी/6186 पुष्पेन चन्द्रा, 41153वाई, सिग्नल्स--16 जनवरी 2004

चन्द्र शेखर

ले. कर्नल एएमएस 8बी

सं. 598, दिनांक 09 नवम्बर 2005.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ले. कर्नल टी एस से ले. कर्नल

आईसी नं., नाम, आर्म

आईसी-40992 एस एस भदूरिया, एडी आर्टी

आईसी-37818 डी एस सन्धु, आर्टी

आईसी-39659 एस आर चौधरी, इंजीनियर्स

आईसी-39823 बी एस राठौर, आईसी

आईसी-41364 हृदयाल सिंह, ईएमई

आईसी-41577 रमेश कुमार छिब्र, आर्टी

आईसी-42060 अनिल तिवारी, इंजीनियर्स

आईसी-42183 रविन्दर सिंह, इंजीनियर्स

आईसी-42199 बी श्याम सुन्दर, सिग्नल्स

आईसी-42209 योगिन्द्र पाल सिंह ग्रेवाल, एसी

आईसी-42447 श्रीनिवास आर, एडी आर्टी

--16 दिसम्बर 2004

एसएल-02735 के एस डोगरा, एसएलएपीटीसी

--16 दिसम्बर 2004

आईसी-30518 के एस गिल, एओसी

आईसी-35803 बी एस शर्मा, इंजीनियर्स

आईसी-24681 एस के मैनी, आर्टी

आईसी-33857 एन के शर्मा, इंजीनियर्स

आईसी-30948 आर एम सिंह, एमएफ

आईसी-35439 पी के प्रधान, ईएमई

आईसी-36132 पी मेहता, इन्फैन्ट्री

स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल

आईसी-46152 निलादरी मुखर्जी, इंजीनियर्स

आईसी-46253 अनिल कुमार चन्द्रा, जैग

आईसी-47701 विकास सैनी, इन्फैन्ट्री

आईसी-47714 राम भगत, एएससी

आईसी-47857 जोरावर सिंह, मैक इन्फैन्ट्री

आईसी-47923 राजवीर सिंह, इन्फैन्ट्री

आईसी-47989 प्रसन्नजीत चक्रवर्ती, ईएमई

आईसी-48048 मोहिन्दर सिंह चौधरी, मैक इन्फैन्ट्री

आईसी-48206 सजय धवन, ईएमई

आईसी-48346 सन्दीप जुनेजा, एसी

आईसी-48388 विश्वजीत सिंह रघुवंशी, ईएमई

आईसी-48430 राजन खेतवाल, इंजीनियर्स

आईसी-48467 योल सतीश माधोराव, इंजीनियर्स

आईसी-31840 परमजीत सिंह, इन्फैन्ट्री

आईसी-36785 आर पी सिंह, मैक इन्फैन्ट्री

आईसी-37864 आर के वर्मा, ईएमई

आईसी-38354 रोहिताश्व, एएससी

आईसी-38835 गणेश कुमार, इन्फैन्ट्री

आईसी-40262 एस के निझावन, ईएमई

आईसी-40266 डी एन चौधरी, इंजीनियर्स

आईसी-40276 एस पी राजन एम, इंजीनियर्स

आईसी-40281 एच आर आर राव, ईएमई

आईसी-40284 जोगिन्द्र पाल सिंह, ईएमई

आईसी-40647 एस के शर्मा, सिग्नल्स

आईसी-40667 विरेन्द्र कुमार चौबे, इंजीनियर्स

आईसी-40669 एन एस सोलंकी, सिग्नल्स

आईसी-40671 एस के सक्सेना, इंजीनियर्स

आईसी-40672 बालासुब्रामनियन, ईएमई

आईसी-40678 बी के सिन्हा, इंजीनियर्स

आईसी-49445 कुलदीप सिंह दलाल, इन्फैन्ट्री

आईसी-49455 मोहित वर्मा, आर्टी

आईसी-49457 नितिन आर खंडेकर, इन्फैन्ट्री

आईसी-49465 रमनप्रीत बाजवा, एवीएन

आईसी-49477 अमनदीप सिंह बजाज, आर्टी

आईसी-49517 राजीव अग्रवाल, आर्टी

आईसी-49526 डी आर गिरीश, इन्फैन्ट्री

आईसी-49723 सुमीत दत्ता, एसी

आईसी-49759 राजदीप सिंह रावला, इंजीनियर्स

आईसी-49876 रोहित बैनर्जी, मैक इन्फैन्ट्री

आईसी-49891 गौरव शर्मा, इन्फैन्ट्री

आईसी-49927 सपीर ठक्कर, इन्फैन्ट्री

आईसी-49939 विजय सिंह सेखों, इन्फैन्ट्री

आईसी-43758 एम सी थॉमस, इन्फैन्ट्री

आईसी-43768 एम के रस्तोगी, इन्फैन्ट्री

आईसी-43806 राजेंद्र रञ्जन, आर्टी

आईसी-43829 आर एस हुडा, इन्फैन्ट्री

आईसी-43930 ए सिंह, एएससी

आईसी-44189 राम सिंह कटार्यान, इन्फैन्ट्री

आईसी-44252 सुनील दलाल, एएससी

आईसी-44296 जयदीप घोष, आर्टी

आईसी-44309 एस एस सिद्धू, इन्फैन्ट्री

आईसी-44322 वी के बाजपेयी, इन्फैन्ट्री  
आईसी-45606 अनिल कुमार गांधी, ईएमई  
आईसी-45766 अजय जोशी, एसी

--16 दिसम्बर 2004

एस एस सिन्हा  
उप निदेशक  
एम एम 8

आईसी-39433 नर सिंह, एसी  
आईसी-44083 संजय पुरी, इन्फैन्ट्री  
आईसी-47266 एम जी विजया कुमार, इंजीनियर्स  
आईसी-45915 जय कीरत सिंह विर्क, इन्फैन्ट्री  
आईसी-47241 लाल विवेक राज सिंह, इन्फैन्ट्री  
आईसी-46473 संदीप नौटियाल, इन्फैन्ट्री  
आईसी-48537 अलोक झा, इन्फैन्ट्री  
आईसी-41895 थॉमस जोसफ, आर्टी  
आईसी-43176 रणजीत कुमार, इंजीनियर्स  
आईसी-39585 मनोज वर्मा, ईएमई  
आईसी-46734 विकास जोशी, इन्फैन्ट्री  
आईसी-48459 डी जेम्स विजया वर्धन, आर्टी  
आईसी-48840 सुनील कुमार, एओसी  
आईसी-49395 कमलजीत सिंह बिन्द्रा, ईएमई  
आईसी-46664 आनन्द कुमार मिश्रा, एओसी  
आईसी-46789 रविस वैध, ए एसी  
आईसी-50979 शंकरराव वसन्तराव यादव, इंजीनियर्स  
आईसी-50992 यतेन्द्र सिंह तोमर, इन्फैन्ट्री  
आईसी-51018 उमैद सिंह राठौर, आर्मी एवीएन  
आईसी-51045 सौरभ लाल, इन्फैन्ट्री  
आईसी-51063 विनय कपूर, इन्फैन्ट्री  
आईसी-51080 राकेश विश्वास, ए एस सी  
आईसी-45362 अजय शरद दाभोलकर, इन्फैन्ट्री  
आईसी-45364 मनीश चन्द कटोच, एसी  
आईसी-45365 प्रवेश पुरी, एसी  
आईसी-45366 संदीप सिंह, ईएमई  
आईसी-45367 इन्दरजीत सिंह, मैक इन्फैन्ट्री

आईसी-45368 एलविश डी मोन्टी, मैक इन्फैन्ट्री  
आईसी-45369 भास्कर देव बर्मन, एएससी  
आईसी-45370 गुरकृपाल सिंह मामक, एएससी  
आईसी-45371 धनजय पाल सिंह ददवाल, इन्फैन्ट्री  
आईसी-45372 पदम कुमार यादव, एसी  
आईसी-45373 धीरेन्द्र मोहन शर्मा, आर्टी  
आईसी-45374 नरेन्द्रा कुमार खजुरिया, एएससी  
आईसी-45375 इंदरिस खान, एसी  
आईसी-45376 मुकेश कुमार वैध, एसी  
आईसी-45377 अमित सिंह, एसी  
आईसी-45378 अरविन्द कुमार शुक्ला, आर्टी  
आईसी-45379 राजीव पुंज, मैक इन्फैन्ट्री  
आईसी-45380 नरेन्द्र कुमार, आर्टी  
आईसी-45381 सुरेन्द्र पाल सिंह, एसी  
आईसी-45382 योव्धवीर सिंह, ईएमई  
आईसी-45383 अनूप सिंह नेगी, ईएमई  
आईसी-45384 सुखविन्दर पाल सिंह चीमा, मैक इन्फैन्ट्री  
आईसी-45386 जगजीत सिंह, ईएमई  
आईसी-45387 रमिन्दर पाल सिंह, आर्टी  
आईसी-45388 अशोक कुमार बालाकृष्णन, एएससी  
आईसी-45389 गुरकीरत सिंह, ईएमई  
आईसी-45390 करियाप्पा एम सी, एएससी  
आईसी-45391 नीरज शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री  
आईसी-45392 अनिल कुमार बक्शी, एसी  
आईसी-45393 देव्याणीय खान, आर्टी  
आईसी-45397 संजीव गुप्ता, एसी  
आईसी-45398 रमेश सम्मत, एसी  
आईसी-45399 राजेन्द्र सिंह, एएससी  
आईसी-45400 सरविन्द सिंह मन्नु, एसी  
आईसी-45405 विमल मल्लिक, आर्टी  
आईसी-45406 प्रवीण मन्दावरा, एसी  
आईसी-45408 राजेन्द्र सिंह, एसी  
आईसी-45410 योगेश सिंह चौहान, ईएमई  
आईसी-45415 भगत सिंह, ईएमई

आईसी-45416 दिनेश अलग, एएससी	आईसी-51903 अलोक कुमार जैन, ईएमई
आईसी-45417 सत्येन्द्रा पंडित, एसी	आईसी-51904 बिक्रम अरोरा, इंजीनियर्स
आईसी-45418 विपिन कुमार भट्टनागर, आर्टी	आईसी-51905 संजीव कपूर, ईएमई
आईसी-45419 विकास चन्द्रा चित्रावन्शी, जैग	आईसी-51907 आशीश कुमार मिश्रा, ईएमई
आईसी-45420 अजय कुमार खजूरिया, ईएमई	आईसी-51908 अनिल पी एस, इंजीनियर्स
आईसी-45422 प्रवेश कुमार भाटिया, एसी	आईसी-51909 राजेश मोहन्ती, ईएमई
आईसी-45423 सूर्या प्रकाश भट्ट, ईएमई	आईसी-51910 सी बी सत्या सरन, इंजीनियर्स
आईसी-45424 मनोज कुमार विज, ईएमई	आईसी-51912 राजेन्द्रा बिक्रम सिंह, इंजीनियर्स
आईसी-45425 राजवीर सिंह, ईन्ट	आईसी-51913 अजय कुमार भन्डारी, इंजीनियर्स
आईसी-45426 सोहन सिंह, एसी	आईसी-51915 शेरे टी अब्राहम, इंजीनियर्स
आईसी-45427 वेंकटेश्वर राव शीता एम राजू, जैग	आईसी-51916 कोका भानू प्रसाद, इंजीनियर्स
आईसी-40870 आर वेंकटरामनन, इंजीनियर्स	आईसी-51918 नितिन कुमार जलतारे, ईन्ट
आईसी-40976 मनोज मिश्रा, एडी आर्टी	आईसी-51919 अजय कुमार सिंह, इंजीनियर्स
आईसी-40980 आशीष कुमार शिशिर कुमार बासु, इन्फैन्ट्री	आईसी-51921 कुलकर्णी सन्दीप विनायक, ईएमई
आईसी-41426 वनिन्दर कुमार शर्मा, एएससी	आईसी-51922 अनन्त श्रीनिवास, ईएमई
आईसी-41513 विनय कुमार बिहारी, एडी आर्टी	आईसी-52276 रोमिन्दर सिंह भसीन, इंजीनियर्स
आईसी-42537 के एस फरतियाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-52277 सुनील रामपाल, ईएमई
आईसी-51883 आनन्द कुमार, इंजीनियर्स	आईसी-52278 राजेन्द्रा कुमार, इंजीनियर्स
आईसी-51885 देवांग चिल्लूभाई नाईक, इंजीनियर्स	आईसी-52279 अमन कंसल, इंजीनियर्स
आईसी-51886 हरमनदीप सिंह मान, इंजीनियर्स	आईसी-52280 नवीन कुमार, ईएमई
आईसी-51887 चन्द्र शेखर, ईएमई	आईसी-52281 विनि त्रिवेदी, इंजीनियर्स
आईसी-51888 तेजवन्त सिंह सैनी, ईएमई	आईसी-52284 अरविन्द कुमार गुप्ता, ईएमई
आईसी-51889 राजेश कुमार जिन्दल, सिग्नल्स	आईसी-52285 शिवेन्द्र कुमार, ईएमई
आईसी-51890 विनोद कुमार, सिग्नल्स	आईसी-52286 मोनिस दास, इंजीनियर्स
आईसी-51891 पी मुरलीरंगेयान, इंजीनियर्स	आईसी-52287 सुमित शिरोन, सिग्नल्स
आईसी-51892 पुषपेन्द्र यादव, सिग्नल्स	आईसी-52288 पवन पांडे, इंजीनियर्स
आईसी-51895 सनी पाल, सिग्नल्स	आईसी-52289 दिलीप गणेश पटवर्धन, इंजीनियर्स
आईसी-51896 आशुतोष मिश्रा, इंजीनियर्स	आईसी-52290 वीरेन्द्र सिंह जेजी, इंजीनियर्स
आईसी-51897 संजीव जी दिलबाजी, ईएमई	आईसी-52291 ओवन जेवीयर रिबेल्लो, सिग्नल्स
आईसी-51898 आशीष कक्कड़, ईएमई	आईसी-52292 सन्दीप कुमार अरोरा, इंजीनियर्स
आईसी-51899 सिबी जार्ज, इंजीनियर्स	आईसी-52293 गुरसीमरात सिंह, इंजीनियर्स
आईसी-51900 राजीव शुक्ला, ईएमई	आईसी-52294 अरुण कुमार सिंह, इंजीनियर्स
आईसी-51901 अनुज श्रीवास्तव, इंजीनियर्स	आईसी-52295 राजेश रामाचन्द्रा भट, इंजीनियर्स
आईसी-51902 राकेश कुमार यादव, इंजीनियर्स	आईसी-52296 संवादी एस ज्योतिरलिंगम, ईएमई

आईसी-52297 सुजीत कुमार मुखर्जी, इंजीनियर्स	आईसी-52342 हरिनाथ के, इंजीनियर्स
आईसी-52298 सत्येन्द्र नारायण, इंजीनियर्स	आईसी-52343 ए सार्दिक, इंजीनियर्स
आईसी-52300 छेती सुन्दीप बालकृष्णा, ईएमई	आईसी-52680 सुजय रन्जन चौधरी, ईएमई
आईसी-52302 अबनिन्दर पाल सिंह, ईएमई	आईसी-52681 कृष्णा सिंह बिष्ट, इंजीनियर्स
आईसी-52303 ठाकुर समीर कनुभाई, ईएमई	आईसी-52682 सोमईयाबराल चक्रवर्ती, इंजीनियर्स
आईसी-52304 परमानन्द कुमार, इंजीनियर्स	आईसी-52683 डेनियल अब्राहम, इंजीनियर्स
आईसी-52307 प्रेम कुमार डी, सिग्नल्स	आईसी-52684 बालासुब्रामण्या आर ए, ईएमई
आईसी-52308 राधाकृष्णा शिबू आई वी, सिग्नल्स	आईसी-52685 गुरिन्दर पाल सिंह डिल्लन, इंजीनियर्स
आईसी-52309 प्रकाश मूर्ति आर, सिग्नल्स	आईसी-52687 प्रवीर कुमार पाल, ईएमई
आईसी-52311 सुनील कुमार उनियाल, सिग्नल्स	आईसी-52688 प्रनीत जैन, इंजीनियर्स
आईसी-52312 लोअरेमब्रम जितिनसिंह, इंजीनियर्स	आईसी-52689 व्यासयारजू त्रिमूल कुमार राजू, ईएमई
आईसी-52313 नवजोत सिंह सिद्ध, ईएमई	आईसी-52690 रन्जय एस हिरेमाथ, इंजीनियर्स
आईसी-52314 मुकुल मन्कू, इंजीनियर्स	आईसी-52691 देवेन्द्र श्याम पान्डे, इंजीनियर्स
आईसी-52315 वाद्रीराजू सुनील कुमार, ईएमई	आईसी-52692 राजीव सिन्हा, इंजीनियर्स
आईसी-52316 विश्वजीत चौबे, इंजीनियर्स	आईसी-52693 देबादास नन्दा, ईएमई
आईसी-52317 विश्वा मोहन कुमार, ईएमई	आईसी-52694 के ए अयूप, ईएमई
आईसी-52318 अलीमुल्लाह खान जानबाज, इंजीनियर्स	आईसी-52695 परीक्षित मेहरा, इंजीनियर्स
आईसी-52319 अनिल कुमार मौर्य, इंजीनियर्स	आईसी-52696 अरविन्द राणा, ईएमई
आईसी-52320 रवि कान्त शर्मा, इंजीनियर्स	आईसी-52697 प्रदीप चौहान, सिग्नल्स
आईसी-52321 रूमाली नितिन कुमार पनरूरांग, ईएमई	आईसी-52698 विवेक चड्ढा, ईएमई
आईसी-52322 अच्युत सिंघल, इंजीनियर्स	आईसी-52699 जाचार्या मैथ्यू, इंजीनियर्स
आईसी-52325 सी सुरेश, ईएमई	आईसी-52700 सी हरिचरन, ईएमई
आईसी-52326 सन्दीप कुमार सिंघल, इंजीनियर्स	आईसी-52701 प्रदीप तिवारी, इंजीनियर्स
आईसी-52327 जगदीश चन्द्रन आर, ईएमई	आईसी-52702 पंकज झा, ईएमई
आईसी-52328 प्रदीप कुमार सी, ईएमई	आईसी-52703 सुदीप गुहा, ईएमई
आईसी-52329 अजय माथुर, ईएमई	आईसी-52705 दलबीर सिंह राठी, सिग्नल्स
आईसी-52330 मनु चौधरी, इंजीनियर्स	आईसी-52706 कपूर अजय श्रीराम, इंजीनियर्स
आईसी-52331 दीपक, इंजीनियर्स	आईसी-52708 रोहितस हरिया, ईएमई
आईसी-52332 जगदीश प्रभु, ईएमई	आईसी-52709 मुरूगादन गो, इंजीनियर्स
आईसी-52333 सन्जीव रै तलवार, इंजीनियर्स	आईसी-52710 अजीत बरोट, इंजीनियर्स
आईसी-52334 सन्जीव श्रीवास्तवा, ईएमई	आईसी-52711 आप्ते अतुल पदमाकर, ईएमई
आईसी-52336 राजीव सिंह सैनी, सिग्नल्स	आईसी-52712 बरहात उपेश कुमार मनहारादन, इंजीनियर्स
आईसी-52337 नितिन विजय बुचे, ईएमई	आईसी-52713 पी मोहम्मद अली, ईएमई
आईसी-52341 प्रहलाद कुलकर्णी, इंजीनियर्स	आईसी-52715 हेमन्त जोगलेकर, सिग्नल्स

आईसी-52716 पी एनस्टाईन सागर लाल, इंजीनियर्स	एसएल-04038 निर्मल सिन्हा, एसएलक्यूएम
आईसी-52717 मनप्रीत सिंह बागी, इंजीनियर्स	एसएल-04039 चंचल चक्रवर्ती, एसएलआरओ
आईसी-52719 हरी गोबिन्द बी, ईएमई	एसएल-04040 रन विजय सिंह, एसएलआरओ
आईसी-52720 राजेश भगवान नावारखेले, सिग्नल्स	एसएल-04041 ए अनन्दा रेड्डी, एसएलआरओ
आईसी-52721 सुब्रामण्यन आर, ईएमई	एसएल-04042 देवाशीष सान्याल, एसएलक्यूएम
आईसी-52722 मुरुकुतला रवि कुमार, इंजीनियर्स	एसएल-04043 भूप सिंह ठाकुर, एसएलआरओ
आईसी-52723 सी एस बालाचन्द्रा मूर्ति, सिग्नल्स	एसएल-04044 जगदीश प्रसाद, एसएलआरओ
--16 दिसम्बर 2004	एसएल-04045 चालसन पाल, एसएलआरओ
एसएल-04054 के पेरूमल, एसएलक्यूएम	एसएल-04047 राम नागिना सिंह, एसएलक्यूएम
--16 दिसम्बर 2004	एसएल-04048 श्रीकुमारन थम्पी वी एन, एसएलआरओ
एसएल-04011 राजेन्द्र सिंह यादव, एसएल (टीओटी)	एसएल-04049 स्वर्ण सिंह, एसएलएओ
एसएल-04012 जीवन सिंह बमेरा, एसएलई/एम	एसएल-04050 एम राजेन्द्रन, एसएलआरओ
एसएल-04014 वेणुगोपाल रघुपति, एसएल (टीओटी)	एसएल-04051 ए अरोक्किया रेतीनम, एसएलक्यूएम
एसएल-04015 लक्ष्मण सिंह, एसएलक्यूएम	एसएल-04052 एम नावालान, एसएलई
एसएल-04016 रन बहादुर राणा, एसएलक्यूएम	एसएल-04053 कृष्ण प्रकाश भट्ट, एसएल आर्ची
एसएल-04017 अमरजीत सिंह, एसएलएसए	एसएल-04055 सुभाष आबू द्विवेदी, एसएलक्यूएम
एसएल-04018 एस एस शेखावत, एसएलई	--18 अप्रैल 2005
एसएल-04019 ए पद्मानाभन, एसएल साइफर	आईसी-46844 राजेन्द्रा कुमार गुप्त, आर्टी
एसएल-04021 सुखदेव राज, एसएलक्यूएम	आईसी-46845 रविन्दर सिंह मेहता, आर्टी
एसएल-04022 आर आई मजूमदार, एसएल (टीओटी)	--23 अप्रैल 2005
एसएल-04023 सोमनाथ डोंगरा, एसएल साइफर	आईसी-46913 ब्रह्म सिंह, आर्टी
एसएल-04024 देविन्दर कुमार शर्मा, एसएलआरओ	आईसी-46914 आर के त्रिमाला, इन्फैन्ट्री
एसएल-04025 बी एस राठौर, एसएलक्यूएम	आईसी-46916 रंजीव प्रधान, इन्फैन्ट्री
एसएल-04026 बीनोयेन्दरा राह रोष, एसएलआरओ	आईसी-46917 राज भूषिन्दर सिंह, आर्टी
एसएल-04027 शशिधरण नायर पी जी, एसएलक्यूएम	आईसी-46918 प्रताप मालिक, आर्टी
एसएल-04028 देवेन्द्र सिंह, एसएल साइफर	आईसी-46919 अलैक्स जैकब, इन्फैन्ट्री
एसएल-04029 यशवन्त सिंह, एसएलआरओ	आईसी-46920 वीन्दर पाल सिंह, इन्फैन्ट्री
एसएल-04030 सत्यावीर सिंह, एसएल साइफर	आईसी-46921 विनोद प्रभाकर, एओसी
एसएल-04031 के एस एल श्रीवास्तव, एस एल साइफर	आईसी-46922 विशाल सूद, एवीएन
एसएल-04032 आईयप्पा पी बी, एसएलआरओ	आईसी-46923 रूपिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
एसएल-04033 शंकर सिंह राठौर, एसएलआरओ	आईसी-46924 श्रीधरन सुरेश कुमार, इन्फैन्ट्री
एसएल-04034 सतीश कुमार, एसएलआरओ	आईसी-46925 संतोष कुमार सिन्हा, एसी
एसएल-04035 रामबिलास राम एसएलक्यूएम	आईसी-46926 वीरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
एसएल-04036 नवरतन सिंह, एसएलआरओ	आईसी-46927 नितिन रमेश, आर्टी



आईसी-46929 सन्दीप धूपर, एएससी  
 आईसी-46930 मनोज ओम्मन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46931 उस्मान सैयद अली, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46932 नरेन्द्र सिंह छिंकारा, आर्टी  
 आईसी-46933 हर्षद चाती, इंजीनियर्स  
 आईसी-46934 गौरव चतुर्वेदी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46936 संजय कौशिक, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46937 पारै एलफर्ड न्यूटन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46938 यतिन्द्र सिंह सांगवान, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46939 राकेश गोदरा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46940 राणा सिन्हा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46941 पीयूष बैरी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46942 विकास लूथरा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46943 योगेश जेठी, एएससी  
 आईसी-46945 समीर दुग्गल, एसी  
 आईसी-46946 पंकज गुप्ता, एएससी  
 आईसी-46948 हिरैन रमेश देसाई, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46949 अमित चटर्जी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46950 अरुण बिन्द्रा, एडी आर्टी  
 आईसी-46951 सन्दीप सिंह, एएससी  
 आईसी-46954 नितिन सोन्धी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46956 प्रताप हरदास, एसी  
 आईसी-46957 आशीष, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46958 अरुण वीर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46959 परेश कुमार, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46962 अमरजीत सिंह बाजवा, एओसी  
 आईसी-46965 वर्गीस डेनियल, इंजीनियर्स  
 आईसी-46966 सुमन मित्रा, आर्टी  
 आईसी-46967 सन्दीप गायल, आर्टी  
 आईसी-46968 वसन्त कुमार करन पानिकर, इन्फैन्ट्री

22 अप्रैल 2005

आईसी-51114 अजय सिंह ठाकुर, इंजीनियर्स  
 आईसी-51115 मुकेश कुमार, इंजीनियर्स  
 आईसी-51116 राहित मेहता, एसी

आईसी-51118 विशाल सिंह, एसी  
 आईसी-51119 सुनील दयानदेव फदातारे, सिग्नल्स  
 आईसी-51120 देवराजू के, सिग्नल्स  
 आईसी-51122 नरेन्द्र जीत सिंह, सिग्नल्स  
 आईसी-51125 समीर सोबती, एडी आर्टी  
 आईसी-51126 अभयपाल सिंह हांसी, इंजीनियर्स  
 आईसी-51127 हरिदयेश कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-51128 विक्रम सिंह, आर्टी  
 आईसी-51129 रजत चावला, सिग्नल्स  
 आईसी-51131 मोन्तू पान्डे, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-51132 पंकज अवस्थी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-51133 विश्वाजीत उपाध्याय, इंजीनियर्स  
 आईसी-51134 चैतन्य प्रभु, एओसी  
 आईसी-51135 अनिल कुमार, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-51137 विक्रम गेरा, आर्टी  
 आईसी-51138 राजेश मेहता, ईएमई  
 आईसी-51140 दिनेश कुमार, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-51141 अजय भूषण, ईएमई  
 आईसी-51142 मनीष गुप्ता, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-51143 अभिजीत शर्मा, इंजीनियर्स  
 आईसी-51144 राजेश गुप्ता, आर्टी  
 आईसी-51146 श्यामजी यादव, एएससी  
 आईसी-51147 अरिक्न्द कुमार यादव, एओसी  
 आईसी-51148 रणदीप सिंह चध्था, एडी आर्टी  
 आईसी-51149 विनय मल्होत्रा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-51150 आशुतोष आनन्द साठे, आर्टी  
 आईसी-51151 आकाश जौहर, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-51154 भारत हरिया, एएससी  
 आईसी-51156 दिग्नेन्द्र प्रताप सिंह, आर्टी  
 आईसी-51157 रविन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-51159 प्रशान्त बाजपेयो, ईएमई  
 आईसी-51160 सुरेश कुमार शिरोन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-51161 के लोगानाथन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-51162 अमर दीप सिंह कहलॉ, इन्फैन्ट्री

आईसी-51163 अजय मिश्रा, आर्टी	आईसी-51201 अनीश कुमार पतेरिया, इन्फैन्ट्री
आईसी-51164 अजय मेहनू, मेक इन्फैन्ट्री	आईसी-51202 भानु खन्ना, एसी
आईसी-51165 विकास प्रभाकर, एओसी	आईसी-51203 नरेन्द्रा सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री
आईसी-51166 देवेन्द्र सिंह ढाका, एएससी	आईसी-51204 रितेश खन्ना, एसी
आईसी-51167 निखिल जेम्स भट्टाचार्यजी, एडी आर्टी	आईसी-51205 दीपक मोहन आनन्द, सिग्नल्स
आईसी-51168 सन्तोष वी, इन्फैन्ट्री	आईसी-51206 सुमित शर्मा, एसी
आईसी-51169 सुमित मेहता, एसी	आईसी-51207 निश्चल सूद, एडी आर्टी
आईसी-51170 बक्शी मनदीप सिंह तलवार, आर्टी	आईसी-51208 संजय जग्गी, एएससी
आईसी-51171 इन्दू प्रकाश मिश्रा, एओसी	आईसी-51209 ए पी अरूण, सिग्नल्स
आईसी-51172 बदी प्रसाद, इन्फैन्ट्री	आईसी-51210 नीरज गुप्ता, इन्फैन्ट्री
आईसी-51173 राजेन्द्रा नारायण मुतालिक, इन्फैन्ट्री	आईसी-51211 देशपान्डे विक्रान्त सुरेश, इन्फैन्ट्री
आईसी-51174 दीपेन्द्र पाल सिंह, आर्टी	आईसी-51212 मनमोहन सिंह, एएससी
आईसी-51175 जितैन अले, एएससी	आईसी-51213 सचिन शरद कुलकर्णी, इन्फैन्ट्री
आईसी-51176 शैलेश साती, इन्फैन्ट्री	आईसी-51214 अजय कुमार अहुजा, इन्फैन्ट्री
आईसी-51178 जोन पोवाई, आर्टी	आईसी-51215 सतीश कुमार, आर्टी
आईसी-51180 विष्णु सिंह सिकारवाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-51216 टी वी प्रदीप कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-51181 इन्दरवीर राणा, एएससी	आईसी-51219 अशोक कुमार, आर्टी
आईसी-51182 दिनेश चन्द्र दूबे, एवीएन	आईसी-51221 अनिल पंडित, एसी
आईसी-51183 संजीव द्विवेदी, इन्फैन्ट्री	आईसी-51222 रजनीश गंभीर, आर्टी
आईसी-51184 सुरेश सिंह पनगहल, इंजीनियर्स	आईसी-51223 रंजन गुप्ता, आर्टी
आईसी-51185 सुरेश कुमार, सिग्नल्स	आईसी-51224 दीपक रंजन राउत, इन्ट
आईसी-51186 मनमोत सिंह सब्बरवाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-51225 सुमन्त रुद्रा, एएससी
आईसी-51187 पवनमोत सिंह बिन्द्रा, ईएमई	आईसी-51226 सुशील चंद्रा चौधरी, इन्फैन्ट्री
आईसी-51189 पंकज सब्बरवाल, एवीएन	आईसी-51227 बंसल नीलेश चंद्र, आर्टी
आईसी-51190 राजीव चौहान, आर्टी	आईसी-51228 जसबीर सिंह दिवान, एडी आर्टी
आईसी-51191 जी मनोज, ईएमई	आईसी-51229 कुलदीप सिंह कलसी, इन्फैन्ट्री
आईसी-51193 मोहन दीप सिंह दुग्गल, आर्टी	आईसी-51230 राजेश जॉय विधियन ओनोल, आर्टी
आईसी-51194 राम प्रताप नैन, इन्ट	आईसी-51231 अतुल्य बाम्जई, ईएमई
आईसी-51195 नरेन्द्र प्रताप सिंह, सिग्नल्स	आईसी-51232 आशीष कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-51196 राजेन्द्रा कुमार प्रुस्ती, आर्टी	आईसी-51234 तेविन्टर जीत सिंह थिंड, इन्फैन्ट्री
आईसी-51197 सितेन्द्र सिंह यादव, एओसी	आईसी-51235 समीर सिंह चंदेला, इन्फैन्ट्री
आईसी-51198 ब्रूसी सी सी फ्रनाडिज, इन्फैन्ट्री	आईसी-51236 गुरबीर सिंह, आर्टी
आईसी-51199 बसन्त सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-51237 अब्दुल हमीद, इन्फैन्ट्री
आईसी-51200 पुष्पेन्द्र मेथर, सिग्नल्स	आईसी-51238 दम बहादुर गुरुंग, इन्फैन्ट्री

आईसी-51239 अनिल यादव, एडी आर्टी	आईसी-51280 मनीष मिश्रा, इन्फैन्ट्री
आईसी-51240 सलिल सेठ, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-51282 महेचा धर्मवीर, इन्फैन्ट्री
आईसी-51241 एम प्रसन्ना वैकटेश्वरन, आर्टी	आईसी-51283 नवनीत सिंह खेरा, एएससी
आईसी-51243 प्रभात भंडारी, एसी	आईसी-51284 ध्रुव चौधरी, ईएमई
आईसी-51244 नीतिश बिष्ट, इन्फैन्ट्री	आईसी-51285 ओम प्रकाश जंगीद, आर्टी
आईसी-51245 बिजय सेन राजकुमार, एएससी	आईसी-51286 जगमीत सिंह, एसी
आईसी-51246 राहुल शर्मा, आर्टी	आईसी-51289 लक्ष्मी कांत अग्रवाल, आर्टी
आईसी-51247 मनीश बक्शी, एओसी	आईसी-51290 असीम कालरा, एओसी
आईसी-51248 मुनीश कुकर, एएससी	आईसी-51291 शेलेश उनियाल, आर्टी
आईसी-51249 विनोद पिल्लई, इन्ट	आईसी-51292 शेखर गुप्ता, इन्फैन्ट्री
आईसी-51250 अशीम कालरा, ईएमई	आईसी-51293 संदीप शर्मा, ईएमई
आईसी-51251 संतोष कुमार मिश्रा, एओसी	आईसी-51294 रविन्द्र सिंह नंदल, इन्फैन्ट्री
आईसी-51252 आशुतोष कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-51295 डैनियल लॉटजेम, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-51253 नरेन्द्रा कुमार, आर्टी	आईसी-51296 ताल्लपानेनी श्रीनिवासुलु, इन्फैन्ट्री
आईसी-51254 विनीत द्विवेदी, एओसी	आईसी-51297 अरुण कुमार शर्मा, आर्टी
आईसी-51255 राजेश सिंह, आर्टी	आईसी-51298 प्रमोद सिंह, आर्टी
आईसी-51256 जयवीर सिंह, एएससी	आईसी-51299 सोमनाथ गुप्ताल, आर्टी
आईसी-51257 हरीश कुमार सेठी, एसी	आईसी-51300 रोमिल शर्मा, इन्फैन्ट्री
आईसी-51258 प्रताप सिंह जौहल, इन्फैन्ट्री	आईसी-51301 जित्तेन्द्रा कुमार मलिक, इन्फैन्ट्री
आईसी-51259 इन्द्रजीत सिंह मान, एएससी	आईसी-51302 अनिल तेहलान, इन्फैन्ट्री
आईसी-51262 संजय कुमार, एवीएन	आईसी-51303 सुमिल पंत, इन्फैन्ट्री
आईसी-51263 दिनेश कुमार त्यागी, एओसी	आईसी-51304 संजीव सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-51265 विनोद कुमार पन्त, एओसी	आईसी-51305 अशोक मनोचा, एओसी
आईसी-51266 विजय कुमार सिंह, एओसी	आईसी-51306 राहुल भार्गव, ईएमई
आईसी-51267 अखिलेश कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-51307 मनन राजेश इरेक्कथ, सिग्नल्स
आईसी-51268 रवि यादव, एसी	आईसी-51308 जुल्फगर हुसैन जाका, एडी आर्टी
आईसी-51269 परमिन्दर सिंह, आर्टी	आईसी-51309 संजय भारद्वाज, आर्टी
आईसी-51270 सोरभ जैन, ईएमई	आईसी-51310 हरि सिंह बिष्ट, सिग्नल्स
आईसी-51271 मनीश गुप्ता, इन्फैन्ट्री	आईसी-51311 अनिमेश शरण, एसी
आईसी-51273 अमरजीत वासदेव, एएससी	आईसी-51312 उम्मान कोटेश्वरा राव, एएससी
आईसी-51274 जोगिन्दर सिंह, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-51313 जगदीप सिंह मान, आर्टी
आईसी-51275 रेमाला श्रीकान्त, आर्टी	आईसी-51314 नवतेज सिंह कलशी, आर्टी
आईसी-51276 हरप्रीत सिंह कैला, इन्फैन्ट्री	आईसी-51317 आदित्य चौधरी, इन्फैन्ट्री
आईसी-51277 जुबीन भटनागर, इन्फैन्ट्री	आईसी-51318 रविन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री

आईसी-51319 गौरव किरण काशीराम, इन्फैन्ट्री	आईसी-51361 मनीश बसेरा, एओसी
आईसी-51320 विरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-51362 वीरेश, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-51321 अमित सक्सेना, एएससी	आईसी-51363 राजीव गोयल, एओसी
आईसी-51322 मनीष रौथान, इन्फैन्ट्री	आईसी-51364 ओम प्रकाश, इन्फैन्ट्री
आईसी-51324 संजय पाठक, एएससी	आईसी-51365 नीरज शर्मा, एडी आर्टी
आईसी-51325 नील जॉन, एसी	आईसी-51366 नरदीप सिंह भसीन, इन्फैन्ट्री
आईसी-51327 राजीव दत्ता, आर्टी	आईसी-51367 कौशिक चक्रवर्ती, ईएमई
आईसी-51328 विवेक कोचर, इन्फैन्ट्री	आईसी-51368 गौरव माथुर, आर्टी
आईसी-51329 संजय कुमार सिंह, ईएमई	आईसी-51369 प्रशान्त नाकरा, एसी
आईसी-51330 रिपुदमन सिंह, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-51370 सतीगिरी जितेन्द्र पाण्डुरंग, इन्ट
आईसी-51331 अमृत पाल सिंह संधु, एएससी	आईसी-51372 पारस मेहरा, इन्फैन्ट्री
आईसी-51332 गौतम दास, एडी आर्टी	आईसी-51373 अमल गौतम, एडी आर्टी
आईसी-51333 ओम प्रकाश, इन्फैन्ट्री	आईसी-51374 मिलिंद श्यामसुन्दर, सिग्नल्स
आईसी-51336 विक्रान्त लखनपाल, सिग्नल्स	आईसी-51375 जीवन रावल, इन्फैन्ट्री
आईसी-51337 भास्कर गुप्ता, आर्टी	आईसी-51376 हरिओम सिंह राठौर, आर्टी
आईसी-51338 धर्मेन्द्र यादव, आर्टी	आईसी-51378 सोरभजीत सिरकर, इंजीनियर्स
आईसी-51341 जोस अब्राहम, इन्फैन्ट्री	आईसी-51379 आलोक कुमार, एओसी
आईसी-51342 दिग्विजय पाल सिंह यादव, इन्फैन्ट्री	आईसी-51381 अमरेन्द्र जीत सिंह, एडी आर्टी
आईसी-51343 मनोज कुमार शर्मा, एओसी	आईसी-51382 रामजी आदिभट्टला, आर्टी
आईसी-51344 राजेसेधरण एम सी, इन्ट	आईसी-51383 जितेन्द्र सिंह बाथ, इन्फैन्ट्री
आईसी-51345 सुदीप मुखर्जी, आर्टी	आईसी-51384 कोटा रामा कृष्णा, इन्फैन्ट्री
आईसी-51346 शेखर अरोरा, एसी	आईसी-51385 अखिल अग्रवाल, सिग्नल्स
आईसी-51347 हस्तीर सिंह पन्नु, एसी	आईसी-51387 बिरेन्द्रा सिंह गहिआवत, इन्फैन्ट्री
आईसी-51348 संजय चोधरी, ईएमई	आईसी-51388 अनुराग चौधरी, एएससी
आईसी-51350 अनुराग यादव, इन्फैन्ट्री	आईसी-51389 शिव मंगल मिश्रा, सिग्नल्स
आईसी-51351 विजयन एम पी, इन्फैन्ट्री	आईसी-51390 संदीप श्रीवास्तव, एसी
आईसी-51352 अजय पान्डे, एएससी	आईसी-51392 दर्शन सिंह परमार, आर्टी
आईसी-51353 विजय सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-51393 सोमबीत घोष, इन्फैन्ट्री
आईसी-51354 थंगजाम होमोस्वर लांगाचा, इन्फैन्ट्री	आईसी-51394 राजीव कुमार सदाना, इन्फैन्ट्री
आईसी-51355 राजेन्द्र माणिक देववले, एएससी	आईसी-51400 अशोक कुमार शर्मा, एईसी
आईसी-51356 समीर भल्ला, सिग्नल्स	आईसी-51408 नबरुण राय, एईसी
आईसी-51357 अजय उनियाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-51417 दलपत सिंह राठौर, एमएफ
आईसी-51359 गुरविन्दर हजुरिया, आर्टी	आईसी-51418 प्रवीण कुमार शर्मा, एईसी
आईसी-51360 भीष्म पराशर, एएससी	आईसी-51419 सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, एईसी

आईसी-51440 कपिल देव कौशल, आईसी

आईसी-51443 राहुल शर्मा, आईसी

आईसी-51466 वीर कुमार बाथ, आईसी

--13 जून 2005

आईसी-53067 संदीप शर्मा, ईएमई

आईसी-53068 अनिल सेन, इंजीनियर्स

आईसी-53070 आर बालासुब्रमनियण, इंजीनियर्स

आईसी-53071 जाजवाल अरुण शंकर, सिग्नल्स

आईसी-53072 एस गोपालकृष्णन, इंजीनियर्स

आईसी-53073 सुरेश जी, ईएमई

आईसी-53074 राजेश्वर सिंह अहलावत, इंजीनियर्स

आईसी-53075 गुरमीत सिंह, इंजीनियर्स

आईसी-53076 विक्रम विजय सूरी, ईएमई

आईसी-53077 इन्द्रनील रामानाथकर, इंजीनियर्स

आईसी-53078 आशीष खरे, ईएमई

आईसी-53079 अजय धवन, ईएमई

आईसी-53080 शिवदास भट्टाचार्य, ईएमई

आईसी-53081 तेजिन्द्र पाल सिंह, ईएमई

आईसी-53083 मनीष पाठक, इंजीनियर्स

आईसी-53085 संदीप बोहरा, सिग्नल्स

आईसी-53087 हेमंत कुमार दवे, इंजीनियर्स

आईसी-53091 रघु कुमार, ईएमई

आईसी-53092 मनोज कुमार ए वी, ईएमई

आईसी-53093 रणदीप सिंह, इंजीनियर्स

आईसी-53094 सुरेश ईश्वर, इंजीनियर्स

आईसी-53095 जतिन्द्र पाल सिंह, इंजीनियर्स

आईसी-53096 पुनीत कुमार अरोरा, सिग्नल्स

आईसी-53098 संजय कुमार नायक, ईएमई

आईसी-53101 अमिनी जिगरभाई नरेशभाई, ईएमई

आईसी-53103 राजशेखर ए एस, सिग्नल्स

आईसी-53104 पंकज सिंह, इंजीनियर्स

आईसी-53105 वी सैमुअल प्रकाश, इंजीनियर्स

आईसी-53106 विकास त्रिपाठी, इंजीनियर्स

आईसी-53107 करंदे संजीव कुमार विश्वासराव, ईएमई

आईसी-53113 सुरेश एस, ईएमई

आईसी-53115 सुधीर पी आर, सिग्नल्स

--16 दिसम्बर 2004

आईसी-2786 अनिल कुमार, एसएलआरओ

आईसी-2790 वेनुगोपालन एम नेहालूर, एसएलआरओ

आईसी-2795 रत्न सिंह, एसएलआरओ

आईसी-2796 अमरीक सिंह बाजवा, एसएलआरओ

आईसी-2800 सी एल भोगोतरा, एसएलआरओ

आईसी-2825 सी टी के मराककर, एसएलआईआर

आईसी-2835 के सी गरोवर, एसएलआईईएम

आईसी-2862 राज सिंह, एसएलटीओटी

आईसी-2892 एल एस बाजेथा, एसएलआईआर

आईसी-2918 सुरेन्द्रन एम एन, एसएलआरओ

आईसी-2924 वी आर कुट्टी, एसएलआरओ

आईसी-2926 आई पी एस सुब्बु, एसएलआरओ

आईसी-2929 आर एस सांगवान, एसएलआरओ

आईसी-2931 एन ए जब्बर, एसएलआरओ

आईसी-2932 मोहिन्द्र कुमार, एसएलआरओ

आईसी-2933 ए आर पनवर, एसएलआरओ

आईसी-2934 सत्या पाल सिंह, एसएलटीईओ

आईसी-2944 एच एस भुल्लर, एसएलआईईएम

आईसी-2953 के के मादेहा, एसएलआईआर

आईसी-2954 शिंदे विष्णु, एसएलआईआर

आईसी-2985 श्रीधनरन ए, एसएलएसए

आईसी-2986 बी एस रंधावा, एसएलएसए

आईसी-3005 एल एस सिसोदिया, एसएलक्यूएम

आईसी-3011 ए के ए एल सिंह, एसएलक्यूएम

आईसी-3012 एम एल शर्मा, एसएलक्यूएम

आईसी-3027 जे एस गुलेरिया, एसएलआरओ

आईसी-3029 के एस थापा, एसएलआरओ

आईसी-3031 वी पी थोमस, एसएलआरओ

आईसी-3035 आर एल शर्मा, एसएलआरओ

आईसी-3046 जगजीत सिंह, एसएलटीईओ

आईसी-3048 ए पी कुमेरी, एसएलआईआर

आईसी-3055 वी आर पी तुरलाटी, एसएलबीआर	आईसी-3159 जसबीर सिंह जसवाल, एसएलआरओ
आईसी-3058 त्रिलोचन सिंह, एसएलटीओटी	आईसी-3161 बलबीर सिंह, एसएलआरओ
आईसी-3059 रथनाकारा बदीअदका, एसएलटीओटी	आईसी-3163 अजीत सिंह, एसएलआरओ
आईसी-3065 जे एस राठौर, एसएलसीआईपीएच	आईसी-3164 जगदीश प्रशाद यादव, एसएलआरओ
आईसी-3076 आर के कांडियन, एसएलएसए	आईसी-3168 मनीराम यादव, एसएलटीईओ
आईसी-3078 बलेश्वर मिश्रा, एसएलएओसी	आईसी-3172 राजिन्द्र सिंह मनडरावल, एसएलएओ
आईसी-3098 राज वी सिंह राना, एसएलक्यूएम	आईसी-3189 प्रमोद कुमार, एसएलबीआर
आईसी-3099 प्रताप सिंह शेखावत, एसएलक्यूएम	आईसी-3192 राजा आहूजा, एसएलबीआर
आईसी-3100 मवुलती सत्यानारायना राजू, एसएलक्यूएम	आईसी-3193 राजेन्द्र नाथ शनगारी, एसएलबीआर
आईसी-3103 सतपाल, एसएलक्यूएम	आईसी-3194 नामबरात पालापपट्टय सानकुन्नी, एसएलबीआर
आईसी-3104 पुरुशोत्थमन, एसएलक्यूएम	आईसी-3195 कल्याण भानजा, एसएलबीआर
आईसी-3106 बच्चन सिंह, एसएलक्यूएम	आईसी-3196 लावाते आवान्ना बासू, एसएलबीआर
आईसी-3107 रत्न मनी प्रधान, एसएलक्यूएम	आईसी-3198 निरपाल सिंह ग्रेवाल, एसएलबीआर
आईसी-3110 होशियार सिंह, एसएलक्यूएम	आईसी-3206 राम कृष्णा राय, एसएलईएम
आईसी-3112 पुन्नीहा राजेन्द्रन, एसएलक्यूएम	आईसी-3210 मदन गोपाल गर्ग, एसएलईएम
आईसी-3113 सुदर्शन सिंह परमार, एसएलक्यूएम	आईसी-3217 सत्य प्रकाश मिश्रा, एसएलटीओटी
आईसी-3125 पी आर विजयन, एसएलआरओ	आईसी-3220 सिमन्ता कुमार मुखोपाध्याय, एसएलटीओटी
आईसी-3135 रामचन्द्र पाठक, एसएलआरओ	आईसी-3223 तुसर कान्ती भगताचार्या, एसएलटीओटी
आईसी-3137 ज्ञानचंद वर्मा, एसएलआरओ	आईसी-3245 ए गोकुरो किशोर सिंह, एसएल साइफर
आईसी-3139 जय प्रकाश नारायण झा, एसएलआरओ	आईसी-3246 शाम शिवीन्दर पाल सिंह, एसएल साइफर
आईसी-3141 महिन्दर कुमार बरेल, एसएलआरओ	आईसी-3247 हरिराम सारोहीवाल, एसएल साइफर
आईसी-3143 सुशील गिरि, एसएलआरओ	आईसी-3248 किशोर चन्द्र घिलदयाल, एसएल साइफर
आईसी-3144 बसन्त बाकल, एसएलआरओ	आईसी-3249 बलजिन्दर सिंह, एसएल साइफर
आईसी-3145 ओम प्रकाश, एसएलआरओ	आईसी-3250 सुबोध चन्द्र मंडल, एसएल साइफर
आईसी-3146 हेम बहादुर गोरंग, एसएलआरओ	आईसी-3251 हरभजन सिंह गरोवर, एसएल साइफर
आईसी-3148 रान सिंह राना, एसएलआरओ	आईसी-3253 राजेन्द्र सिंह दासिला, एसएल साइफर
आईसी-3149 जगदेव सिंह, एसएलआरओ	आईसी-3254 अभय राम सुलेखलन, एसएल साइफर
आईसी-3150 हरजीत सिंह धनजल, एसएलआरओ	आईसी-3259 राम दयाल सिंह, एसएलएओसी
आईसी-3151 प्रेम लाल शर्मा, एसएलआरओ	आईसी-3260 भनवर सिंह राठौर, एसएलएओसी
आईसी-3152 सुहविन्दर सिंह, एसएलआरओ	आईसी-3263 शिवनाथ सिंह तोमर, एसएलएओसी
आईसी-3153 जगदीश लाल, एसएलआरओ	आईसी-3265 योगिन्द्रपाल सिंह, एसएलएओसी
आईसी-3155 सुधदेव शर्मा, एसएलआरओ	आईसी-3266 केसर सिंह भाएनसरो, एसएलएओसी
आईसी-3156 सिवाकुमारन मन्नील, एसएलआरओ	आईसी-3273 नावल सिंह, एसएलएसए
आईसी-3157 ज्ञान प्रकाश शर्मा, एसएलआरओ	आईसी-3276 गणपति मनाकायूआयंगर, एसएलएसए
आईसी-3158 सूरत सिंह पुनिया, एसएलआरओ	

आईसी-3279 सुधाकरन वी, एसएलएसए  
 आईसी-3280 पुरुशोधमन ए एन, एसएलएसए  
 आईसी-3281 अजमेल सिंह, एसएलएसए  
 आईसी-3282 स्टीफन एस, एसएलएसए  
 आईसी-3283 सुनी थोमस, एसएलएसए  
 आईसी-3296 रघबीर सिंह, एसएलआई  
 आईसी-3298 कुतन सोमासेखरन नायर, एसएलआईसी  
 आईसी-3301 सुरिन्द्र सिंह, एसएलआईसी  
 आईसी-3302 बलबीर सिंह, एसएलआईसी  
 आईसी-3303 राम आसरे मिश्रा, एसएलआईसी  
 आईसी-3305 सूरी कृष्ण एहलावत, एसएलआईसी  
 आईसी-3307 वेणुमोपालन नायर पी, एसएलआईसी  
 आईसी-3308 परमेश चन्द्र वाशिष्ठा, एसएलआईसी  
 आईसी-3309 राजिन्द्र सिंह चीमा, एसएलएपीटीसी  
 आईसी-3310 रामफल, एसएलएपीटीसी  
 आईसी-3582 जयपाल सिंह, एसएलक्यूएम  
 आईसी-3829 सरबजीत सिंह, एसएलक्यूएम  
 आईसी-4657 जे पी सिन्हा, एसएलआरओ

--16 दिसम्बर 2004

एसएल-02594 नरसी राम शर्मा, एसएलआरओ

--16 दिसम्बर 2004

चन्द्र प्रकाश  
 उप निदेशक  
 एम एस 8सी

सं. 599, दिनांक 14 नवम्बर 2005--राष्ट्रपति सहर्ष ब्रिगेडियर के मूल  
 रैंक में निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

नाम, आईसी, आर्म, ब्रिगेडियर के मूल रैंक में प्रभावी तिथि

कर्नल कायस्था अरुणा (आईसी-24644), 16 कैब--01 मार्च 2002

कर्नल रंगराजन एस टी (आईसी-24672), इंजीनियर्स--05 अगस्त  
 2002 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 मार्च 2002  
 से दी जाएगी।

कर्नल रैना वी (आईसी-25069), आर्टी--03 मार्च 2002

कर्नल शेखावत बी एस (आईसी-25167), इंजीनियर्स--01 सितम्बर  
 2002 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 मार्च 2002  
 से दी जाएगी।

कर्नल बिश्नाई डी वी एस (आईसी-25266), एएससी--05 मार्च  
 2002

कर्नल कक्कर एस के (आईसी-25337), ईएमई--28 अक्टूबर 2002  
 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 मार्च 2002 से दी  
 जाएगी।

कर्नल मल्होत्रा एस एम (आईसी-27897), ईएमई--07 मार्च 2002

कर्नल गणेशम पी (आईसी-27899), ईएमई--01 जनवरी 2003 से  
 ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 मार्च 2002 से दी  
 जाएगी।

कर्नल गुरपाल सिंह (आईसी-32132), पंजाब--09 मार्च 2002

कर्नल फौगट आर एस (आईसी-32171), एडी आर्टी--10 मार्च 2002

कर्नल मेहरोत्रा एस सी, एसएम (आईसी-32388), इंजीनियर्स--01  
 सितम्बर 2002 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना  
 11 मार्च 2002 से दी जाएगी।

कर्नल रॉय एन के (आईसी-25535), आर्टी--12 मार्च 2002

कर्नल वेलू रविन्द्र (आईसी-25553), मद्रास--13 मार्च 2002

कर्नल कपूर प्रदीप (आईसी-25618), इंजीनियर्स--14 मार्च 2002

कर्नल मिश्रा एस (आईसी-25651), पंजाब--15 मार्च 2002

कर्नल शाही एल पी (आईसी-25709), सिख--16 मार्च 2002

कर्नल सन्धू एम जे एस (आईसी-25732), एओसी--17 मार्च 2002

कर्नल राव जी एम (आईसी-30290), एडी आर्टी--18 मार्च 2002

कर्नल सन्धू जे एस (आईसी-29736), जैक रीफ--19 मार्च 2002

कर्नल नरुला एस एस, एस एम (आईसी-25088), पंजाब--20 मार्च  
 2003

कर्नल ग्रेवाल डी एस (आईसी-25094), 46 एआर--21 मार्च 2003

कर्नल बब्बर सुभाष (आईसी-30285), इंजीनियर्स--01 सितम्बर 2002  
 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22 मार्च 2002 से दी  
 जाएगी।

कर्नल घोष एस के (आईसी-27561), आर्टी--30 अगस्त 2002 से  
 ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23 मार्च 2002 से दी  
 जाएगी।

कर्नल अरोरा आर के (आईसी-25806), पंजाब--24 मार्च 2002

कर्नल चौहान डी एस (आईसी-25808), 04 एआर--25 मार्च 2002

कर्नल रविशंकर एस (आईसी-25812), इंजीनियर्स--01 सितम्बर  
 2002 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26 मार्च 2002  
 से दी जाएगी।

कर्नल चौधरी एम एम (आईसी-25814), सिख--27 मार्च 2002

कर्नल गुरदीप सिंह (आईसी-25815), आर्टी--28 मार्च 2002	कर्नल विलियम ईसाकरन (आईसी-25897), आर्टी--26 अप्रैल 2002
कर्नल विक्रम सिंह (आईसी-25816), सिख लाई--29 मार्च 2002	कर्नल परनायक के टी (आईसी-25901), राजरिफ --27 अप्रैल 2002
कर्नल मोहन हरेन्द्र (आईसी-25817), बिहार--30 मार्च 2002	कर्नल सिंह एच पी (आईसी-25902), डोगरा--28 अप्रैल 2002
कर्नल अहलूवालिया जे पी एस (आईसी-25818), आर्टी--31 मार्च 2002	कर्नल पवार एस एस (आईसी-25903), जाट--29 अप्रैल 2002
कर्नल चक्रवर्ती पी के (आईसी-25822), आर्टी--01 अप्रैल 2002	कर्नल आहूजा विनोद (आईसी-25904), पंजाब--30 अप्रैल 2002
कर्नल कटोच डी सी, एस एम (आईसी-25824), डोगरा--02 अप्रैल 2002	कर्नल शर्मा वी के (आईसी-25909), सिग्नल्स--23 जनवरी 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मई 2002 से दी जाएगी।
कर्नल चेतीन्द्र सिंह (आईसी-25825), 7 कैव--03 अप्रैल 2002	कर्नल नायर वी एस, एस एम, वी एस एम (आईसी-25912), एमएलआई--02 मई 2002
कर्नल रवि खेतरपाल (आईसी-25826), ईएमई--01 फरवरी 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 अप्रैल 2002 से दी जाएगी।	कर्नल पोपली वी के (आईसी-25916), आर्टी--03 मई 2002
कर्नल सेठी जे एस (आईसी-25827), आर्टी--05 अप्रैल 2002	कर्नल जे एस सिद्ध (आईसी-25917), 50 ए आर --04 मई 2002
कर्नल निर्मलजीत सिंह (आईसी-25829), आर्टी--21 जून 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 अप्रैल 2002 से दी जाएगी।	कर्नल ब्रिजपाल सिंह (आईसी-25919), आसाम--05 मई 2002
कर्नल साठी पी एस (आईसी-25830), आर्टी--07 अप्रैल 2002	कर्नल बुधवार वी एस (आईसी-25921), आर्टी--06 मई 2002
कर्नल क्लेयर एच पी एस (आईसी-25836), गाईस--08 अप्रैल 2002	कर्नल नायर सुरेश (आईसी-25929), आर्टी (जीसी)--07 मई 2002
कर्नल चोपड़ा ए के (आईसी-25838), एओसी--09 अप्रैल 2002	कर्नल मेहता डी के (आईसी-25957), राजरिफ --08 मई 2002
कर्नल बलजीत सिंह (आईसी-25839), आर्टी--10 अप्रैल 2002	कर्नल नाथ नरेन्द्र (आईसी-25961), आर्टी--09 मई 2002
कर्नल गुरमीत सिंह (आईसी-25841), आर्टी (जीसी)--11 अप्रैल 2002	कर्नल नायर जी के बी, वीएसएम (आईसी-25973), इन्ट--10 मई 2002
कर्नल पाटिल पी आर (आईसी-25842), मद्रास--12 अप्रैल 2002	कर्नल टिण्ड जे एस (आईसी-25985), आर्टी (जीसी)--11 मई 2002
कर्नल गुप्ता आर के (आईसी-25845), इंजीनियर्स--01 सितम्बर 2002 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13 अप्रैल 2002 से दी जाएगी।	कर्नल संदीप सेन (आईसी-25996), कुमाऊं--12 मई 2002
कर्नल राय एस पी (आईसी-25847), गाईस--14 अप्रैल 2002	कर्नल बी एम गुणेश (आईसी-25999), इन्फ--19 जनवरी 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13 मई 2002 से दी जाएगी।
कर्नल कुमार सत्येन्द्र, एस एम (आईसी-25853), 5 जी आर --16 अप्रैल 2002	कर्नल सेठी के एस (आईसी-27004), आर्टी--14 मई 2002
कर्नल सरूप अनिल (आईसी-25856), एओसी--17 अप्रैल 2002	कर्नल बुधवार पदम सिंह (आईसी-27009), 5 जीआर--15 मई 2002
कर्नल संधू एच एस (आईसी-25862), आर्टी--18 अप्रैल 2002	कर्नल माइने डी के (आईसी-27013), महार--01 जून 2002
कर्नल नागियाच राजीव (आईसी-25867), 76 ए आर--19 अप्रैल 2002	कर्नल पी डी विल्फ्रेड (आईसी-27016), एओसी--02 जून 2002
कर्नल सिद्धू आर एस (आईसी-25872), मद्रास--20 अप्रैल 2002	कर्नल लाल ए के (आईसी-27022), पंजाब--03 जून 2002
कर्नल विल्लन जी एस (आईसी-25873), एएससी--21 अप्रैल 2002	कर्नल मेनन प्रकाश (आईसी-27026), गाईस--04 जून 2002
कर्नल देविन्द्र सिंह (आईसी-25876), सिख--23 जनवरी 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23 अप्रैल 2002 से दी जाएगी।	कर्नल बरार आर एस (आईसी-27028), मेक इन्फ--05 जून 2002
	कर्नल जसबीर सिंह, वीएसएम (आईसी-27034), डोगरा--06 जून 2002
	कर्नल वर्मा ए एम (आईसी-27038), राजपूत--07 जून 2002



कर्नल गुरमीत सिंह (आईसी-27075), एओसी--08 जून 2002

कर्नल सिंह जगमोहन (आईसी-27104), कुमाऊं--09 जून 2002

कर्नल नरूला जी एस (आईसी-27106), एओसी--01 जुलाई 2002

कर्नल सेठी एच सी (आईसी-27119), आर्टी--02 जुलाई 2002

कर्नल कपूर राज (आईसी-27125), एओसी--03 जुलाई 2002

कर्नल गुलिया के एस (आईसी-27127), सिख-04 जुलाई 2002

कर्नल मंडल एच एस (आईसी-27153), आईसी--18 अगस्त 2002 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 जुलाई 2002 से दी जाएगी।

कर्नल सुरिन्द्र सिंह (आईसी-32720), गढ रिफ--06 जुलाई 2002

कर्नल ग्रेवाल जे एस (आईसी-32765), पंजाब--07 जुलाई 2002

कर्नल कुनथ एम पी (आईसी-32711), आर्टी--08 जुलाई 2002

कर्नल गोवाडिया डी जे (आईसी-32437), नागा--10 जुलाई 2002

कर्नल चढा टी के (आईसी-32443), मेक इन्फ--11 जुलाई 2002

कर्नल महादेवन ए (आईसी-32449), इंजीनियर्स--01 जनवरी 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12 जुलाई 2002 से दी जाएगी।

कर्नल संधल ए एल, एस एम (आईसी-32455), इंजीनियर्स--08 सितम्बर 2002 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13 जुलाई 2002 से दी जाएगी।

कर्नल गगनेजा जे के (आईसी-32456), आर्टी--14 जुलाई 2002

कर्नल सी डी सावन्त (आईसी-32460), एमएलआई--15 जुलाई 2002

कर्नल आर एस पन्वर (आईसी-32467), ईएमई--01 मार्च 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16 जुलाई 2002 से दी जाएगी।

कर्नल वर्मा एच सी (आईसी-32470), 85 एआर--17 जुलाई 2002

कर्नल ब्रिजेन्द्र सिंह (आईसी-32488), 49 एआर--29 जुलाई 2002

कर्नल श्रीरामलु एस (आईसी-32496), आर्टी--01 अगस्त 2002

कर्नल जमवाल एम एस (आईसी-32498), इन्ट--02 अगस्त 2002

कर्नल मल्होत्रा आर के (आईसी-32550), जाट--03 अगस्त 2002

कर्नल कुमार विजय (आईसी-32551), गढ रीफ--04 अगस्त 2002

कर्नल भल्ला संदीप (आईसी-32579), एओसी--05 अगस्त 2002

कर्नल नायर जी एम (आईसी-25833), 11 जीआर--07 अगस्त 2002

कर्नल सिंह बी जे (आईसी-30599), सिग्नल्स--01 मई 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 अगस्त 2002 से दी जाएगी।

कर्नल शिवनन सिंह, वीआरसी (आईसी-30601), पारा--09 अगस्त 2002

कर्नल मस्तीन्द्र सिंह (आईसी-30602), इंजीनियर्स--01 जनवरी 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 अगस्त 2002 से दी जाएगी।

कर्नल एस रघुनाथन (आईसी-30619), सिख--01 मई 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 अगस्त 2002 से दी जाएगी।

कर्नल थोसै डी जे (आईसी-30631), इंजीनियर्स--01 अप्रैल 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 सितम्बर 2002 से दी जाएगी।

कर्नल कश्यप पी के (आईसी-30637), सिग्नल्स--04 जून 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 सितम्बर 2002 से दी जाएगी।

कर्नल एस बाला सुब्रमनियन (आईसी-30645), सिख--01 जून 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 सितम्बर 2002 से दी जाएगी।

कर्नल डिल्लन एम एस (आईसी-27194), आर्टी--04 सितम्बर 2002

कर्नल वी देवगिरकर (आईसी-33898), ईएमई--01 सितम्बर 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 सितम्बर 2002 से दी जाएगी।

कर्नल सी पी तिवारी (आईसी-33899), सिख--01 जुलाई 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 सितम्बर 2002 से दी जाएगी।

कर्नल महावीर सिंह (आईसी-33028), 20 एल--07 सितम्बर 2002

कर्नल खटी पी सी एस, वीआरसी (आईसी-32716), 2 जीआर--08 सितम्बर 2002

कर्नल तुशीर आर एस (आईसी-32725), ग्रिनेडियर--09 सितम्बर 2002

कर्नल सी एम हरनाल (आईसी-32738), ईएमई--01 सितम्बर 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 सितम्बर 2002 से दी जाएगी।

कर्नल सक्सेना विजय (आईसी-32728), 41 एआर--11 सितम्बर 2002

कर्नल पैन्डारकर यू एम (आईसी-32731), 66 एआर--12 सितम्बर 2002

कर्नल सिंह टी टी (आईसी-32745), एएससी--13 सितम्बर 2002

कर्नल पी वी डेविड (आईसी-32752), एएससी--14 सितम्बर 2002

कर्नल सिंह आई एम (आईसी-32759), 51 एआर--01 अक्टूबर 2002

कर्नल मरवाह एच सी (आईसी-32767), आर्टी--01 अक्टूबर 2002

कर्नल मडप्पा एन एच (आईसी-32792), मैक इन्फ--04 अक्टूबर 2002

कर्नल संधू सी एस (आईसी-32809), बिहार--05 अक्टूबर 2002

कर्नल चौधरी एस के (आईसी-32860), कुमाऊं--06 अक्टूबर 2002

कर्नल श्रीवास्तव ए के (आईसी-32885), जैग--07 अक्टूबर 2002

कर्नल चोना वी के (आईसी-27196), ग्रिनेडियर--10 अक्टूबर 2002

कर्नल राधाकृष्णन टी जी (आईसी-27198), मद्रास--11 अक्टूबर 2002

कर्नल दलाल जे एस, वीआरसी (आईसी-27200), गढ़ रिफ--12 अक्टूबर 2002

कर्नल सिंह एस के (आईसी-27203), 8 जीआर--17 अक्टूबर 2002

कर्नल शर्मा वी के (आईसी-27204), पंजाब--24 अक्टूबर 2002

कर्नल भटनागर विनय (आईसी-27205), 5 जीआर --29 अक्टूबर 2002

कर्नल सिन्हा एस पी (आईसी-27206), एओसी--01 नवम्बर 2002

कर्नल एस पी चौधरी (आईसी-27208), ईएमई--01 नवम्बर 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 नवम्बर 2002 से दी जाएगी।

कर्नल अनिल कुमार (आईसी-27211), आर्टी--05 मई 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 नवम्बर 2002 से दी जाएगी।

कर्नल कपूर विकास (आईसी-27213), आर्टी--04 नवम्बर 2002

कर्नल थापा सी बी, वीएसएम (आईसी-27214), 11 जीआर--05 नवम्बर 2002

कर्नल सिन्हा एन के (आईसी-27215), 3 जीआर--06 नवम्बर 2002

कर्नल पाण्डे वी के (आईसी-27216), 15 एआर--07 नवम्बर 2002

कर्नल ससील प्रभाकर (आईसी-27217), इंजीनियर्स--01 अप्रैल 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 दिसम्बर 2002 से दी जाएगी।

कर्नल चतुर्वेदी आई एस (आईसी-27218), आर्टी--02 दिसम्बर 2002

कर्नल खोसला दिलीप (आईसी-27225), एओसी--03 दिसम्बर 2002

कर्नल गुलिया वी एस (आईसी-27235), राजपूत--05 दिसम्बर 2002

कर्नल टॉक एस एस (आईसी-27236), ग्रिनेडियर--06 दिसम्बर 2002

कर्नल दिनेश खत्री (आईसी-27238), ईएमई--01 दिसम्बर 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 दिसम्बर 2002 से दी जाएगी।

कर्नल मित्रा ए (आईसी-27241), आर्टी--08 दिसम्बर 2002

कर्नल गोस्वामी बी (आईसी-27247), गढ़ रिफ--12 दिसम्बर 2002

कर्नल ए के धवन (आईसी-27253), सिग्नल्स--01 नवम्बर 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 30 दिसम्बर 2002 से दी जाएगी।

कर्नल पंजीकर पी सी, वीएसएम (आईसी-27256), मैक इन्फ--01 जनवरी 2003

कर्नल राजिन्दर सिंह, एस एम (आईसी-27258), मैक इन्फ--02 जनवरी 2003

कर्नल कुमार रामेश्वर (आईसी-27262), आर्टी (जीसी)--03 जनवरी 2003

कर्नल सोनेजा ए सी, वीएसएम (आईसी-27264), जैक रिफ--04 जनवरी 2003

कर्नल नायर बी वी (आईसी-27265), आर्टी--05 जनवरी 2003

कर्नल सेनगुप्ता एस एस (आईसी-27269), इंजीनियर्स--01 अप्रैल 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जनवरी 2003 से दी जाएगी।

कर्नल अहलावत एस एस (आईसी-27277), एसी--07 जनवरी 2003

कर्नल विनय सागर (आईसी-27285), ईएमई--01 फरवरी 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जनवरी 2003 से दी जाएगी।

कर्नल गोखले एस जी (आईसी-27288), आर्टी--09 जनवरी 2003

कर्नल गाडरे ए एच (आईसी-27289), आर्टी--10 जनवरी 2003

कर्नल ओबेराय राजन, वीएसएम (आईसी-27295), 11 एआर--12 जनवरी 2003

कर्नल के ए करियप्पा (आईसी-27297), सिग्नल्स--01 नवम्बर 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13 जनवरी 2003 से दी जाएगी।

कर्नल थापा सी एस (आईसी-27304), 48 एआर--14 जनवरी 2003

कर्नल गुलाटी ए के (आईसी-27314), 47 एआर--15 जनवरी 2003

कर्नल कुमार बी यू (आईसी-27316), आर्टी--16 जनवरी 2003

कर्नल ओबेराय के जे एस (आईसी-27321), पंजाब--17 जनवरी 2003

कर्नल आर कोच्चर एस एम, वीएसएम (आईसी-27325), ईएमई--01 जनवरी 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18 जनवरी 2003 से दी जाएगी।

कर्नल एन बी पटेल (आईसी-27338), इंजीनियर्स--20 जनवरी 2003

कर्नल द्रविड़ अरुण (आईसी-27345), एएससी--01 फरवरी 2003

कर्नल बटर एम एस (आईसी-27352), आर्टी (जीसी)--02 फरवरी 2003

कर्नल दीपक ग़ोवर (आईसी-27367), इंजीनियर्स--01 फरवरी 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 फरवरी 2003 से दी जाएगी।

कर्नल मेपरथ डब्लू जी (आईसी-27426), एएससी--04 फरवरी 2003

कर्नल जेम्स ओ ए (आईसी-27467), ईएमई--01 जनवरी 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 फरवरी 2003 से दी जाएगी।

कर्नल अशोक कुमार एम सी (आईसी-27470), राजपूत--06 फरवरी 2003

कर्नल एस के यादव (आईसी-27474), ईएमई--01 फरवरी 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 फरवरी 2003 से दी जाएगी।

कर्नल वासन ए के (आईसी-27488), इंजीनियर्स--01 अप्रैल 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 फरवरी 2003 से दी जाएगी।

कर्नल देवेन्द्र प्रसाद (आईसी-30950), सिग्नल्स--01 नवम्बर 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 फरवरी 2003 से दी जाएगी।

कर्नल एन वी पाण्डे (आईसी-30956), सिग्नल्स--01 नवम्बर 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 फरवरी 2003 से दी जाएगी।

कर्नल आर एस वानखेडे (आईसी-30958), ईएमई--06 फरवरी 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 फरवरी 2003 से दी जाएगी।

कर्नल सेहगल पी के (आईसी-30959), इंजीनियर्स--01 अप्रैल 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12 फरवरी 2003 से दी जाएगी।

कर्नल बी एस सिद्धू (आईसी-30962), ईएमई--01 फरवरी 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13 फरवरी 2003 से दी जाएगी।

कर्नल एस डब्ल्यू सखरे (आईसी-30963), ईएमई--01 मार्च 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14 फरवरी 2003 से दी जाएगी।

कर्नल बी बी शर्मा (आईसी-30977), इंजीनियर्स--02 मई 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15 फरवरी 2003 से दी जाएगी।

कर्नल हरबीर सिंह (आईसी-30978), ईएमई--01 अप्रैल 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16 फरवरी 2003 से दी जाएगी।

कर्नल एस दासगुप्ता (आईसी-30986), सिग्नल्स--01 नवम्बर 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18 फरवरी 2003 से दी जाएगी।

कर्नल ओ डी टंडन (आईसी-30988), सिग्नल्स--01 नवम्बर 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19 फरवरी 2003 से दी जाएगी।

कर्नल कान्त श्रुति (आईसी-27580), ईसी--04 मार्च 2003 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20 फरवरी 2003 से दी जाएगी।

एन. मारियप्पन  
संयुक्त निदेशक/एम एस (एम्स)

सेना शखा

सं. 600, दिनांक 11 नवम्बर 2005.--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को अधिवर्षिता आयु ग्रहण करने पर सेना से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन

मेजर जनरल अशोक कुमार (एमआर-02059वाई), एएमसी/पीसी--30 नवम्बर 2004 (अपराह)।

ब्रिगेडियर आर के सूद, एस एम (एमआर-03358के), एएमसी/पीसी--31 अक्टूबर 2004 (अपराह)।

ब्रिगेडियर जी एल एन स्वामी, वीर चक्र (एमआर-03276एफ), एएमसी/पीसी--31 अक्टूबर 2004 (अपराह)।

ब्रिगेडियर ए पी दास (एमआर-04451एक्स), एएमसी/पीसी--30 नवम्बर 2004 (अपराह)।

ब्रिगेडियर आर सी बेहरा (एमआर-03818ए), एएमसी/पीसी--31 अक्टूबर 2004 (अपराह)।

कर्नल एस के सयाल (एमआर-02585एक्स), एएमसी/पीसी--31 दिसम्बर 2004 (अपराह)।

कर्नल (श्रीमती) एच के खेत्रपाल (एमआर-04450पी), एएमसी/पीसी--30 नवम्बर 2004 (अपराह)।

कर्नल वाई एस श्रीनाथ (एमआर-03490के), एएमसी/पीसी--31 अक्टूबर 2004 (अपराह)।

कर्नल जे के चौपड़ा (एमआर-05686डब्ल्यू), एएमसी/पीसी--30 नवम्बर 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल ओम प्रकाश (एनटीआर-16378डब्ल्यू), एएमसी/एनटी/पीसी--30 नवम्बर 2004 (अपराह)।

राजेश कामरान  
ब्रिगेडियर  
उप डीजीएफएमएस (पी)

सं. 601, दिनांक 10 नवम्बर 2005.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

आईसी-16969 कर्नल लुथरा किरती कृष्ण, ईएमई--12 सितम्बर 2000 (अप.)

आईसी-31664 ले. कर्नल सी वी एस एस सतीश, ईएमई--09 मई 2001 (अप.)

आईसी-31221 कर्नल मृगेन्द्र कुमार, ईएमई--07 जनवरी 2004 (अप.)

आईसी-37737 मेजर राजेन्द्र सिंह, एसी--15 जनवरी 2004 (अप.)

आईसी-36131 कर्नल बासवाराजू विष्णु मोहन, ईएमई--16 अप्रैल 2003 (अप.)

आईसी-34674 कर्नल ओमप्रकाश मिश्रा, ईएमई--13 मार्च 2004 (अप.)

आईसी-25937 कर्नल रवीन्द्र पाल सिंह बरार, एसी--08 फरवरी 2004 (अप.)

आईसी-27159 कर्नल कंवर विजय सिंह, ईएमई--20 फरवरी 2003 (अप.)

आईसी-30953 कर्नल हिरेन्द्र पाल सिंह, ईएमई--30 सितम्बर 2003 (अप.)

आईसी-31325 ले. कर्नल पुष्पेन्द्र सिंह, एसी--30 सितम्बर 2001 (अप.)

आईसी-29823 कर्नल रनवीर सिंह, ईएमई--30 अक्टूबर 2001 (अप.)

आईसी-34358 ले. कर्नल ए के सचदेवा, इन्फैन्ट्री--30 जून 2001 (अप.)

आईसी-33376 कर्नल सदानन्दा शंकर नायक, इन्फैन्ट्री--28 जून 2004 (अप.)

आईसी-35665 ले. कर्नल जयन्त कृष्णा, इन्फैन्ट्री--26 अक्टूबर 2003 (अप.)

आईसी-39895 मेजर आर एस मलिक, इन्फैन्ट्री--01 मार्च 2004 (अप.)

आईसी-25589 कर्नल बेरी राकेश, इन्फैन्ट्री--03 अप्रैल 2001 (अप.)

आईसी-37343 ले. कर्नल गेरार्ड लोबो, इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2002 (अप.)

आईसी-38299 ले. कर्नल नेविली ह्यूग ग्रेशियस, गार्ड--09 मार्च 2004 (अप.)

आईसी-23802 कर्नल जगदम्बा प्रसाद चन्डोला, इन्फैन्ट्री--09 जनवरी 2002 (अप.)

आईसी-19642 कर्नल महेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री--14 मई 2001 (अप.)

आईसी-27995 कर्नल सोनी नरेश कुमार धीरूमल, इन्फैन्ट्री--03 अक्टूबर 2001 (अप.)

आईसी-34798 ले. कर्नल अनिल अलघ, एम/इन्फैन्ट्री--07 मार्च 2001 (पूर्वा.)

आईसी-34791 कर्नल आर मलिक, इन्फैन्ट्री--31 अक्टूबर 2003 (अप.)

आईसी-35164 ले. कर्नल र्यान पीटर लोम्बो, इन्फैन्ट्री--01 नवम्बर 2003 (पूर्वा.)

आईसी-27824 ले. कर्नल मुकेश सेठी, इन्फैन्ट्री--25 अगस्त 2004 (अप.)

आर के शर्मा  
संयुक्त निदेशक,  
एमएस/पीआर

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 17th December 2005

## ARMY BRANCH

No.597, dated. the 10th November 2005.—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

To be Lts wef 08 Dec 2001

Rajat Tyagi (IC-61954F), Inf seniority next below Akhilesh Kumar Pal (IC-61953Y), Engrs whose name appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 26 Oct 2002.

The undermentioned Gentleman Cadets of 98 Technical Graduates Course and 12A University Entry Scheme Course (relegated GCs of 97 TGC & 12 UES Course) whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) or 'U' (denoting UES) are granted permanent commission in the rank of Lt wef 10 Dec 2004 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94 (TGC) and AI 2/93 amended vide AI 12/96 (UES). They are also granted two years ante-date seniority for pay and promotions wef 11 Dec 2002 under SAI 1/S/94 for GCs of TG Course and AI 2/93 amended vide AI 12/96 for GCs of UES Course :—

IMA No., Name, IC No. &amp; Arms/Services

T/6141 Sanjeev Shukla, 64740W, Sigs  
U/510 Arjun Popli, 64741Y, EME  
T/36086 Parikshit Mehra, 64742F, Engrs  
T/6130 M Sagir Ali, 64743K, Engrs  
U/507 Biraj Singh Jauhar, 64745P, Sigs  
T/6131 Chirom Kaju, 64746X, EME  
T/6139 Amreek Singh, 64747A, Arty  
T/6127 Vinay Yadav, 64748H, AC  
T/6162 Amit Kadian, 64749L, Engrs  
T/6068 Jayant Baban Dhore, 64750A, EME  
T/6126 Rajesh Choudhary, 64751H, AC  
T/6098 Nalin Shukla, 64752L, Arty  
T/6132 Amol Mone, 64754W, Sigs  
T/6090 Manish Kapila, 64755Y, Arty  
T/6183 Manish Kohli, 64757K, Arty  
T/6109 Verma Kshitij Sudhir, 64758M, Engrs  
T/6171 Sankhe Sameer Purushottam, 64759P, Ad Arty  
T/6184 Harkirat S Virk, 64761M, Engrs  
U/511 Anshul Varma, 64762P, Sigs  
T/6110 Hari Krishnan S, 64763X Arty

T/6133 Randhawa Singh Rana, 64764A, Arty  
T/6157 Anoop Mishra, 64765H, Engrs  
T/6177 Vineet Kohli, 64766L, Ad Arty  
T/6180 Gaurav Bhardwaj, 64767N, Arty  
T/6138 Alok Misra, 64768W, AC  
T/6164 Rohit Sharma, 64769Y, AC  
T/6121 Manoj Somanathan, 64770N, Arty  
T/6185 Monesh Kumar Bathre, 64771W, Arty  
T/6179 Amarjit Singh, 64772Y, Engrs  
T/6159 Amit Digra, 64773F, Sigs  
T/6147 Vijay Kumar Sharma, 64774K, EME  
T/6155 Borkar Kunal Shridhar, 64775M, Engrs  
T/6135 Mathura Nath Dey, 64776P, EME  
T/6166 Kamaldeep Singh, 64777X, Ad Arty  
T/6123 K Nageshwar Rao, 64778A, EME  
T/6169 Manjrekar Darshan Sadashiv, 64779H, Ad Arty  
T/6170 Hawaldar Ershadi, 64780X, AC  
T/6142 Arun Sirohi, 64781A, Arty  
T/6137 Sandeep Singh, 64782H, Engrs  
T/6182 Amitoj Singh, 64783L, Ad Arty  
T/6151 Shashwat Kumar Singh, 64784N, Int  
T/6128 Krishna Gopal Yadav, 64785W, Arty  
T/6143 Nazare Vinay Vilas, 64786Y, Int  
T/6153 Hemant K Soni, 64787F, Sigs  
T/6129 Dharmendra Singh Rathore, 64788K, Sigs  
T/6117 SK Prakash, 64789M, Arty  
T/6154 Abhinav Rishi, 64791K, Sigs  
T/6146 Tarun, 64792M, Sigs  
T/6176 Divya Kumar, 64793P, EME  
T/6168 Amartya Ghosh, 64794X, Arty  
U/466 Ankur Garg, 64795A, Engrs  
T/6172 Mohinderpal Singh Ghai, 64796H, Engrs  
T/6125 Rahul Karwasra, 64797L, Arty  
T/6163 Surpreet Singh, 64798N, EME  
T/6174 Pavan Kumar G, 64799W, Engrs  
T/6167 Sauptick Mitra, 64800A, Arty  
T/6161 Chalapaladamugu Vijay, 64802L, AC  
T/6152 Avisekh Ghosh, 64803N, Engrs  
T/6181 Sudhansh Rohella, 64804W, EME

T/6144 Adarsh Kumar, 64805Y, Arty

T/6186 Pushpen Chandra, 64808M, Engrs

T/6149 Pathak Ashish Chandrashaker, 64809P, EME

T/6173 K Kannan, 64810K, Sigs

2. The following officers are also granted permanent commission in the rank of Lt wef 10 Dec 2004 under the terms and conditions of AI 105/61 :—

T/6134 Avinash Rawal, 64756F, AEC

T/6165 Bipin Kumar Shukla, 64760K, AEC

T/6148 K Anup Nair, 64790F, AEC

T/6145 Lalnunstama, 64807K, AEC

#### SHORT SERVICE COMMISSION (On Probation)

The undermentioned GCs of 98 Technical Graduates Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the dates shown against their names under the provisions of SAI 1/S/94 :—

IMA No., Name, SS No., Arm/Services and Date of SSC (on probation)

#### 98 Technical Graduates Course

T/6123 K Nageshwar Rao, 41095A, Sigs, 16 Jan 2004

T/6125 Rahul Karwasra, 41097L, EME, 16 Jan 2004

T/6126 Rajesh Choudhary, 41098N, EME, 16 Jan 2004

T/6127 Vinay Yadav, 41099W, EME, 16 Jan 2004

T/6128 Krishna Gopal Yadav, 41100A, Sigs, 16 Jan 2004

T/6129 Dharmendra Singh Rathore, 41101H, Sigs, 16 Jan 2004

T/6130 M Sagir Ali, 41102L, Engrs, 16 Jan 2004

T/6131 Chirom Kaju, 41103N, Sigs, 16 Jan 2004

T/6132 Amol Mone, 41104W, Sigs, 16 Jan 2004

T/6133 Randhawa Singh Rana, 41105Y, Sigs, 16 Jan 2004

T/6135 Mathura Nath Dey, 41106F, EME, 16 Jan 2004

T/6137 Sandeep Singh, 41108M, Engrs, 16 Jan 2004

T/6138 Alok Misra, 41109P, EME, 16 Jan 2004

T/6139 Amreek Singh, 41110K, EME, 16 Jan 2004

T/6141 Sanjeev Shukla, 41112P, Sigs, 16 Jan 2004

T/6142 Arun Sirohi, 41113X, Sigs, 16 Jan 2004

T/6143 Nazare Vinay Vilas, 41114A, Sigs, 16 Jan 2004

T/6144 Adarsh Kumar, 41115H, Sigs, 16 Jan 2004

T/6146 Tarun, 41116L, Sigs, 16 Jan 2004

T/6147 Vijay Kumar Sharma, 41117N, EME, 16 Jan 2004

T/6149 Pathak Ashish Chandrashaker, 41118W, EME, 16 Jan 2004

T/6151 Shashwat Kumar Singh, 41120N, Sigs, 16 Jan 2004

T/6152 Avisekh Ghosh, 41121W, Engrs, 16 Jan 2004

T/6153 Hemant K Soni, 41122Y, Sigs, 16 Jan 2004

T/6154 Abhinav Rishi, 41123F, Sigs, 16 Jan 2004

T/6155 Borkar Kunal Shridhar, 41124K, EME, 16 Jan 2004

T/6157 Anoop Mishra, 41125M, Engrs, 16 Jan 2004

T/6159 Amit Digra, 41127X, Sigs, 16 Jan 2004

T/6161 Chapalmadugu Vijay, 41129H, Sigs, 16 Jan 2004

T/6162 Amit Kadian, 41130X, EME, 16 Jan 2004

T/6163 Surpreet Singh, 41131A, Sigs, 16 Jan 2004

T/6164 Rohit Sharma, 41132H, Sigs, 16 Jan 2004

T/6166 Kamaldeep Singh, 41133L, Sigs, 16 Jan 2004

T/6167 Sauptick Mitra, 41134N, Sigs, 16 Jan 2004

T/6168 Amrtya Ghosh, 41135W, Sigs, 16 Jan 2004

T/6169 Manjrekar Darshan Sadashiv, 41136Y, Sigs, 16 Jan 2004

T/6170 Hawaldar Ershadi, 41137F, EME, 16 Jan 2004

T/6171 Sankhe Sameer Purushottam, 41138K, Sigs, 16 Jan 2004

T/6172 Mohinderpal Singh Ghai, 41139M, Engrs, 16 Jan 2004

T/6173 K Kannan, 41140F, Sigs, 16 Jan 2004

T/6174 Pavan Kumar G, 41141K, Engrs, 16 Jan 2004

T/6176 Divya Kumar, 41143P, EME, 16 Jan 2004

T/6177 Vineet Kohli, 41144X, Sigs, 16 Jan 2004

T/6179 Amarjit Singh, 41146H, EME, 16 Jan 2004

T/6180 Gaurav Bhardwaj, 41147L, EME, 16 Jan 2004

T/6181 Sudhansh Rohella, 41148N, EME, 16 Jan 2004

T/6182 Amitoj Singh, 41149W, Sigs, 16 Jan 2004

T/6183 Manish Kohli, 41150L, Sigs, 16 Jan 2004

T/6184 Harkirat S Virk, 41151N, Sigs, 16 Jan 2004

T/6185 Monesh Kumr Bathre, 41152W, EME, 16 Jan 2004

T/6186 Pushpen Chandra, 41153Y, Sigs, 16 Jan 2004

CHANDER SHEIKHAR

Lt Col

AMS 8B

## ARMY BRANCH

No. 598, dated the 9th November 2005.—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

## Lt Col (TS) to Lt Col

IC No., Name and Arm

IC-40992, SS Bhadauria, Ad Arty

IC-37818 DS Sandhu, Arty

IC-39659 SR Choudhury, Engrs

IC-39823 BS Rathore, AEC

IC-41364 Hardayal Singh, EME

IC-41577 Ramesh Kumar Chhibber, Arty

IC-42060 Anil Tiwari, Engrs

IC-42183 Ravinder Singh, Engrs

IC-42199 B Shyam Sunder, Sigs

IC-42209 Yoginder Pal Singh Grewal, AC

IC-42447 Srinivasan R, Ad Arty

—16 Dec 2004

## PERMANENT COMMISSION (SL)

## Lt Col (TS) to Lt Col

Pers No., Name and Arm

SL-2735 KS Dogra, SL Aptc

—16 Dec 2004

## PERMANENT COMMISSION

## Lt Col (TS) to Lt Col

Pers No., Name and Arm

30518 KS Gill, AOC

35803 VS Sharma, Engrs

IC-24681 SK Maini, Arty

IC-33857 NK Sharma, Engrs

IC-30948 RM Singh, Inf

IC-35439 PK Pradhan, EME

IC-36132 P Mehta, Inf

—16 Dec 2004

## Maj to Lt Col

IC-46152 Niladri Mukherjee, Engrs

IC-46253 Anil Kumar Chandra, Jag

IC-47701 Vikas Saini, Inf

IC-47714 Ram Bhagat, ASC

IC-47857 Zorawar Singh, M/Inf

IC-47923 Rajbir Singh, Inf

IC-47989 Prasanjit Chakravorty, EME

IC-48048 Mohinder Singh Choudhary, M/Inf

IC-48206 Sanjay Dhawan, EME

IC-48346 Sandeep Jhunja, AC

IC-48388 Vishwajit Singh Raghuwanshi, EME

IC-48430 Rajan Kheterpal, Engrs

IC-48467 Yeole Satish Madhaorao, Engrs

IC-31840 Paramjit Singh, Inf

IC-36785 RP Singh, Mech Inf

IC-37864 RK Verma, EME

IC-38354 Rohit Asw, ASC

IC-38835 Ganesh Kumar, Inf

IC-40262 SK Nijhawan, EME

IC-40266 DN Chowdhary, Engrs

IC-40276 SP Rajan M, Engrs

IC-40281 HRR Rao, EME

IC-40284 Joginder Pal Singh, EME

IC-40647 SK Sharma, Sigs

IC-40667 Virendra Kumar Choubey, Engrs

IC-40669 NS Solanki, Sigs

IC-40671 SK Saxena, Engrs

IC-40672 Balasubramanian, EME

IC-40678 BK Sinha, Engrs

IC-49445 Kuldeep Singh Dalal, Inf

IC-49455 Mohit Verma, Arty

IC-49457 Nitin R Khandekar, Inf

IC-49465 Ramanpreet Bajwa, Avn

IC-49477 Amandeep Singh Bajaj, Arty

IC-49517 Rajeev Aggarwal, Arty

IC-49526 DR Girish, Inf

IC-49723 Sumit Datta, AC

IC-49759 Rajdeep Singh Rawal, Engrs	IC-51063 Vinay Kapoor, Inf
IC-49876 Rohit Banerji, Mech Inf	IC-51080 Rakesh Biswas, ASC
IC-49891 Gaurav Sharma, Inf	IC-45362 Ajay Sharad Dabholkar, Inf
IC-49927 Sameer Thakkar, Inf	IC-45364 Satish Chand Katoch, AC
IC-49939 Vikram Singh Sekhon, Inf	IC-45365 Pravesh Puri, AC
IC-43758 MC Thomas, Inf	IC-45366 Sandeep Singh, EME
IC-43768 MK Rastogi, Inf	IC-45367 Inderjit Singh, Mech/Inf
IC-43808 Rajiv Ranja, Arty	IC-45368 Elvis D' Monty, Mech/Inf
IC-43829 RS Hooda, Inf	IC-45369 Bhasker Dev Burman, ASC
IC-43930 A Singh, ASC	IC-45370 Gurkirpal Singh Mamak, ASC
IC-44189 Ram Singh Kadyan, Inf	IC-45371 Dhanjai Pal Singh Dadwal, Inf
IC-44252 Sunil Dalal, ASC	IC-45372 Padam Kumar Yadav, AC
IC-44296 Jaideep Ghose, Arty	IC-45373 Dharendra Mohan Sharma, Arty
IC-44309 SS Sidhu, Inf	IC-45374 Narendra Kumar Khajuria, ASC
IC-44322 VK Bajpai, Inf	IC-45375 Idrish Khan, AC
IC-45608 Anil Kumar Gandhi, EME	IC-45376 Mukesh Kumar Vaid, AC
IC-45766 Ajay Joshi, AC	IC-45377 Ameet Singh, AC
IC-39633 Nar Singh, AC	IC-45378 Arvind Kumar Shukla, Arty
IC-44083 Sanjay Puri, Inf	IC-45379 Rajiv Punj, Mech/Inf
IC-47266 MG Vijaya Kumar, Engr	IC-45380 Narinder Kumar, Arty
IC-45915 Jai Kirit Singh Virk, Inf	IC-45381 Surinder Pal Singh, AC
IC-47241 Lal Vivek Raj Singh, Inf	IC-45382 Youdhvir Singh, EME
IC-46473 Sundeep Nautiyal, Inf	IC-45383 Anoop Singh Negi, EME
IC-48537 Alok Jha, Inf	IC-45384 Sukhwinder Pal Singh Cheema, Mech/Inf
IC-41895 Thomas Joseph, Arty	IC-45386 Jagjeet Singh, EME
IC-43176 Ranjit Kumar, Engr	IC-45387 Raminder Pal Singh, Arty
IC-39585 Manoj Verma, EME	IC-45388 Ashok Kumar Balakrishnan, ASC
IC-46734 Vikas Joshi, Inf	IC-45389 Gurkirat Singh, EME
IC-48459 D James Vijaya Vardhan, Arty	IC-45390 Cariappa MC, ASC
IC-48840 Sunil Kumar, AOC	IC-45391 Neeraj Sharma, Mech/Inf
IC-49395 Kamaljeet Singh Bindra, EME	IC-45392 Anil Kumar Bakshi, AC
IC-46664 Anand Kumar Mishra, AOC	IC-45393 Debashis Khan, Arty
IC-46789 Raveesh Vaid, ASC	IC-45397 Sanjiv Gupta, AC
IC-50979 Shankarrao Vasantrao Yadav, Engrs	IC-45398 Ramesh Sampath, AC
IC-50992 Yatendra Singh Tomar, Inf	IC-45399 Rajender Singh, ASC
IC-51018 Umaid Singh Rathore, Army AVN	IC-45400 Sarbinder Singh Sandhu, AC
IC-51045 Saurabh Lal, Inf	IC-45405 Vimal Mallick, Arty



IC-45406 Praveen Mandotra, AC	IC-51902 Rakesh Kumar Yadav, Engrs
IC-45408 Rajinder Singh, AC	IC-51903 Alok Kumar Jain, EME
IC-45410 Yoginder Singh Chauhan, EME	IC-51904 Bikram Arora, Engrs
IC-45415 Bhagat Singh, EME	IC-51905 Sanjiv Kapur, EME
IC-45416 Dinesh Alagh, ASC	IC-51907 Ashish Kumar Mishra, EME
IC-45417 Satyendra Pandit, AC	IC-51908 Anil PS, Engrs
IC-45418 Vipin Kumar Bhatnagar, Arty	IC-51909 Rajesh Mohanty, EME
IC-45419 Vikash Chandra Chitravanshi, Jag	IC-51910 CB Satya Saran, Engrs
IC-45420 Ajay Kumar Khajuria, EME	IC-51912 Rajendra Vikram Singh, Engrs
IC-45422 Pravesh Kumar Bhatia, AC	IC-51913 Ajay Kumar Bhandari, Engrs
IC-45423 Surya Prakash Bhatt, EME	IC-51915 Shery T Abraham, Engrs
IC-45424 Manoj Kumar Viji, EME	IC-51916 Coca Bhanu Prasad, Engrs
IC-45425 Rajvir Singh, Int	IC-51918 Nitin Kumar Jaltare, Int
IC-45426 Sohan Singh, AC	IC-51919 Ajay Kumar Singh, Engrs
IC-45427 Venkateswara Rao Seeta M Raju, Jag	IC-51921 Kulkarni Sandeep Vinayak, EME
IC-40870 R Venkataramanan, Engrs	IC-51922 Ananth Srinivas, EME
IC-40976 Manoj Misra, Ad Arty	IC-52276 Rominder Singh Bhasin, Engrs
IC-40980 Ashish Kumar Shishir Kumar Basu, Inf	IC-52277 Sunil Rampal, EME
IC-41426 Veninder Kumar Sharma, ASC	IC-52278 Rajendra Kumar, Engrs
IC-41513 Vinay Kumar Bihari, Ad Arty	IC-52279 Aman Kansal, Engrs
IC-42537 KS Fartiyal, Inf	IC-52280 Naveen Kumar, EME
IC-51883 Anand Kumar, Engrs	IC-52281 Vipin Trivedi, Engrs
IC-51885 Devang Chitubhai Naik, Engrs	IC-52284 Arvind Kumar Gupta, EME
IC-51886 Harmandip Singhs Mann, Engrs	IC-52285 Shivendra Kumar, EME
IC-51887 Chander Sheikher, EME	IC-52286 Monish Dass, Engrs
IC-51888 Tejwant Singh Saini, EME	IC-52287 Sumit Sheoran, Sigs
IC-51889 Rajesh Kumar Jindal, Sigs	IC-52288 Pawan Pandey, Engrs
IC-51890 Vinod Kumar, Sigs	IC-52289 Dilip Ganesh Patwardhan, Engrs
IC-51891 P Murali Rangaiyan, Engrs	IC-52290 Virinder Singh Jeji, Engrs
IC-51892 Pushpendra Yadav, Sigs	IC-52291 Owen Xavier Rebello, Sigs
IC-51895 Sunny Paul, Sigs	IC-52292 Sandeep Kumar Arora, Engrs
IC-51896 Ashutosh Mishra, Engrs	IC-52293 Gursinrat Singh, Engrs
IC-51897 Sanjeev G Dilbagi, EME	IC-52294 Arun Kumar Singh, Engrs
IC-51898 Ashish Kakar, EME	IC-52295 Rajesh Ramachandra Bhat, Engrs
IC-51899 Ciby George, Engrs	IC-52296 Savandhi S Jyothirlingant Jyothirlingam, EM
IC-51900 Rajeev Shukla, EME	IC-52297 Sujit Kumar Mukherjee, Engrs
IC-51901 Anuj Srivastava, Engrs	IC-52298 Satyendra Narayan, Engrs
	IC-52300 Chetty Sundeep Balkrishna, EME

IC-52302 Abninder Pal Singh, EME	IC-52687 Pravir Kumar Pal, EME
IC-52303 Thakar Samir Kanubhai, EME	IC-52688 Puneet Jain, Engrs
IC-52304 Paramanand Kumar, Engrs	IC-52689 Vyasyarju Tirumal Kumar Raju, EME
IC-52307 Prem Kumar D, Sigs	IC-52690 Sanjay S Hiremath, Engrs
IC-52308 Radhakrishna Shibu IV, Sigs	IC-52691 Devendra Shyam Pandey, Engrs
IC-52309 Prakash Murthy R, Sigs	IC-52692 Rajeev Sinha, Engrs
IC-52311 Sunil Kumar Uniyal, Sigs	IC-52693 Debadas Nanda, EME
IC-52312 Lourebam Jiten Singh, Engrs	IC-52694 KA Ayup, EME
IC-52313 Navjot Singh Sidhu, EME	IC-52695 Praikshit Mehra, Engrs
IC-52314 Mukul Manku, Engrs	IC-52696 Arvind Rana, EME
IC-52315 Vaddiraju Sunil Kumar, EME	IC-52697 Pradeep Chauhan, Sigs
IC-52316 Bishwajeet Choubey, Engrs	IC-52698 Vivek Chadha, EME
IC-52317 Vishwa Mohan Kumar, EME	IC-52699 Zachria Mathew, Engrs
IC-52318 Aleemullah Khan Janbaj, Engrs	IC-52700 C Haricharan, EME
IC-52319 Anil Kumar Maurya, Engrs	IC-52701 Pradeep Tiwari, Engrs
IC-52320 Ravi Kant Sharma, Engrs	IC-52702 Pankaj Jha, EME
IC-52321 Rumale Niteen Kumar Panrurang, EME	IC-52703 Sudip Guha, EME
IC-52322 Achyut Singhal, Engrs	IC-52705 Dalbir Singh Rathi, Sigs
IC-52325 C Suresh, EME	IC-52706 Kapoor Ajay Shriram, Engrs
IC-52326 Saudeep Kumar Singhal, Engrs	IC-52708 Rohitash Huria, EME
IC-52327 Jagadeesh Chandran R, EME	IC-52709 Murugadan P, Engrs
IC-52328 Pradeep Kumar C, EME	IC-52710 Ajit Barot, Engrs
IC-52329 Ajay Mathur, EME	IC-52711 Apte Atul Padmaker, EME
IC-52330 Manu Choudhary, Engrs	IC-52712 Barhat Upesh Kumar Manharadan, Engrs
IC-52331 Deepak, Engrs	IC-52713 P Mohammed Ali, EME
IC-52332 Jagdish Prblu KP, EME	IC-52715 Hemant Jogalekar, Sigs
IC-52333 Sanjeev Raytalwar, Engrs	IC-52716 P Einstein Sagar Lal, Engrs
IC-52334 Sanjeev Shrivastava, EME	IC-52717 Manpreet Singh Baghi, Engrs
IC-52336 Ranjay Singh Saini, Sigs	IC-52719 Hari Govind B, EME
IC-52337 Nitin Vijay Buche, EME	IC-52720 Rajesh Bhagwan Nawarkhele, Sigs
IC-52341 Prahlad Kulkarni, Engrs	IC-52721 Subramanian R, EME
IC-52342 Harinath K, Engrs	IC-52722 Mulukutla Ravi Kumar, Engrs
IC-52343 A Cyriac, Engrs	IC-52723 CS Balachandra Murihy, Sigs
IC-52680 Sujay Ranjan Choudhari, EME	—16 Dec 2004
IC-52681 Krishna Singh Bisht, Engrs	Pers No., Name and Arm
IC-52682 Soumyabrata Chakraborty, Engrs	SL-4054 K Perumal, SL QM
IC-52683 Daniel Abraham, Engrs	—16 Dec 2004
IC-52684 Balasubramanya RA, EME	SL-4011 Rajender Singh Yadav, SL (TOT)
IC-52685 Gurinder Pal Singh Dhillon, Engrs	SL-4012 Jeewan Singh Basera, SL E/M

SL No.	Name & Arm
SL-4014 Venugopal Raghupathi, SL (TOT)	IC-46844 Rajendra Kumar Gupta, Arty
SL-4015 Laxman Singh, SL QM	IC-46845 Ravinder Singh Mehta, Arty
SL-4016 Ran Bahadur Rana, SL QM	
SL-4017 Amarjit Singh, SL SA	
SL-4018 SS Shekhawat, SL AE	IC-46913 Braham Singh, AD Arty
SL-4019 A Padmanabhan, SL CIPH	IC-46914 R. Chemmala, Inf
SL-4021 Sukhdev Raj, SL QM	IC-46916 Ranjeev Pradhan, Inf
SL-4022 RI Mazumdar, SL TOT	IC-46917 Raj Bhupinder Singh, Arty
SL-4023 Somnath Dogra, SL CIPH	IC-46918 Pratap Malik, Arty
SL-4024 Davinder Kumar Sharma, SL RO	IC-46919 Alex Jacob, Inf
SL-4025 BS Rathore, SL QM	IC-46920 Vinder Pal Singh, Inf
SL-4026 Benoyendra Raha Roy, SL RO	IC-46921 Vinod Prabhakar, AOC
SL-4027 Sasidharan Nair PG, SL QM	IC-46922 Vishai Sood AVN
SL-4028 Devendra Singh, SL CIPH	IC-46923 Rupinder Singh, Inf
SL-4029 Yeshwant Singh, SL RO	IC-46924 Sreedharan Suresh Kumar, Inf
SL-4030 Satyavir Singh, SL CIPH	IC-46925 Santosh Kumar Sinha, AC
SL-4031 KSL Srivastava SL CIPH	IC-46926 Virender Singh, Inf
SL-4032 Aiyappa PB, SL RO	IC-46927 Nitin Ramesh, Arty
SL-4033 Shankar Singh Rathore, SL RO	IC-46929 Sandeep Dhupar, ASC
SL-4034 Saish Kumar, SL RO	IC-46930 Manoj Oommen, Inf
SL-4035 Ram Bilash Ram, SL QM	IC-46931 Usman Syed Ali, Inf
SL-4036 Navratan Singh, SL RO	IC-46932 Narendra Singh Chhikara, Arty
SL-4038 Nirmal Sinha, SL QM	IC-46933 Harshad Chati, Engrs
SL-4039 Chanchal Chakrabarti, SL RO	IC-46934 Gaurav Chaturvedi, Inf
SL-4040 Ran Vijay Singh, SL RO	IC-46936 Sanjay Kaushik, Inf
SL-4041 A Ananda Reddy, SL RO	IC-46937 Parry Aifred Newton, Inf
SL-4042 Devashis Sanyal, SL QM	IC-46938 Yatender Singh Sangwan, Inf
SL-4043 Bhoop Singh Thakur, SL RO	IC-46939 Rakesh Godara, Inf
SL-4044 Jagdish Prasad, SL RO	IC-46940 Rana Sinha, Inf
SL-4045 Valsan Paul, SL RO	IC-46941 Piyush Berry, Inf
SL-4047 Ram Nagina Singh, SL QM	IC-46942 Vikas Luthra, Inf
SL-4048 Sreekumaran Thampi VN, SL RO	IC-46943 Yogesh Jethi, ASC
SL-4049 Swaran Singh, SL AO	IC-46945 Sameer Duggal, AC
SL-4050 M Rajendran SL RO	IC-46946 Pankaj Gupta, ASC
SL-4051 A Arockia Reithinam, SL QM	IC-46948 Hiren Ramesh Desai, Inf
SL-4052 M Navalani, SL AE	IC-46949 Amit Chatterjee, Inf
SL-4053 Krishan Prakash Bhatt, SL ARCH	IC-46950 Arun Bindra, AD Arty
SL-4055 Subhash Babu Dwivedi, SL QM	IC-46951 Sandeep Singh, ASC
	IC-46954 Nitin Sondhi, Inf

—23 Apr 2005

—18 Apr 2005

IC-46956 Pratap Hardas, AC	IC-51151 Akash Johar, Inf
IC-46957 Ashish, Inf	IC-51154 Bharat Huria, ASC
IC-46958 Arun Bir Singh, Inf	IC-51156 Digendra Pratap Singh, Arty
IC-46959 Paresk Kumar, Inf	IC-51157 Ravinder Singh, Inf
IC-46962 Amarjit Singh Bajwa, AOC	IC-51159 Prashant Bajpai, EME
IC-46965 Varghese Daniel, Engrs	IC-51160 Suresh Kumar Sheoran, Inf
IC-46966 Suman Mitra, Arty	IC-51161 K Loganathan, Inf
IC-46967 Sandeep Goyal, Arty	IC-51162 Amardeep Singh Kahlon, Inf
IC-46968 Vasant Kumar KRN Panicker, Inf	IC-51163 Ajay Misra, Arty
	IC-51164 Ajay Mahindro, Mech/Inf
— 22 April 2005	IC-51165 Vikas Prabhakar, AOC
IC-51114 Ajay Singh Thakur, Engrs	IC-51166 Davinder Singh Dhaka, ASC
IC-51115 Mukesh Kumar, Engrs	IC-51167 Nikhil James Bhattacharji, AD/Arty
IC-51116 Rohit Mehta, AC	IC-51168 Santosh V, Inf
IC-51118 Vishal Singh, AC	IC-51169 Sumit Mehta, AC
IC-51119 Sunil Dayandeo Fadatare, Sigs	IC-51170 Bakshi Mandeep Singh Talwar, Arty
IC-51120 Devaraju K, Sigs	IC-51171 Indu Prakash Mishra, AOC
IC-51122 Narinder Jit Singh, Inf	IC-51172 Badri Prasad, Inf
IC-51125 Sangeer Sobti, AD Arty	IC-51173 Rajendra Narayan Mutalik, Inf
IC-51126 Abhey Pal Singh Hansi, Engrs	IC-51174 Deepinder Pal Singh, Arty
IC-51127 Hridayesh Kumar Singh, Inf	IC-51175 Jiten Ale, ASC
IC-51128 Vikram Singh, Arty	IC-51176 Shailesh Sati, Inf
IC-51129 Rajat Chawla, Sigs	IC-51178 Jonh PY, Arty
IC-51131 Montu Pande, Inf	IC-51180 Vishnu Singh Shikarwar, Inf
IC-51132 Pankaj Awasthi, Inf	IC-51181 Inderveer Rana, ASC
IC-51133 Vishvajeet Upadhyay, Engrs	IC-51182 Dinesh Chander Dubey, AVN/Corps
IC-51134 Chaitanya Prabhu, AOC	IC-51183 Sanjeev Dwivedi, Inf
IC-51135 Anil Kumar, Inf	IC-51184 Suresh Singh Panghal, Engrs
IC-51137 Vikram Gera, Arty	IC-51185 Suresh Kumar, Sigs
IC-51138 Rajesh Mehta, EME	IC-51186 Manmeet Singh Sabarwal, Inf
IC-51140 Dinesh Kumar, Inf	IC-51187 Pavanmeet Singh Bindra, EME
IC-51141 Ajay Bhushan, EME	IC-51189 Pankaj Sabharwal, AVN/Corps
IC-51142 Manish Gupta, Inf	IC-51190 Rajiv Chauhan, Arty
IC-51143 Abhijeet Sharma, Engrs	IC-51191 G Manoj, EME
IC-51144 Rajesh Gupta, Arty	IC-51193 Mohan Deep Singh Duggal, Arty
IC-51146 Shyamji Yadav, ASC	IC-51194 Rampratap Nain, Int
IC-51147 Arvind Kumar Yadav, AOC	IC-51195 Narendra Pratap Singh, Sigs
IC-51148 Randeep Singh Chatha, AD Arty	IC-51196 Rajendar Kumar Prusty, Arty
IC-51149 Vinay Malhotra, Inf	IC-51197 Sitender Singh Yadav, AOC
IC-51150 Ashutosh Anand Sathe, Arty	IC-51198 Bruce CC Fernandez, Inf

IC-51199 Basant Singh, Inf	IC-51243 Prabhat Bhandari, AC
IC-51200 Pushpendra Mair, Sigs	IC-51244 Nitish Bisht, Inf
IC-51201 Aneesh Kumar Pateria, Inf	IC-51245 Bijay Sena Raj Kumar, ASC
IC-51202 Bhanu Khanna, AC	IC-51246 Rahul Sharma, Arty
IC-51203 Narendra Singh Negi, Inf	IC-51247 Manish Bakshi, AOC
IC-51204 Ritesh Khanna, AC	IC-51248 Munish Kukar, ASC
IC-51205 Deepak Mohan Anand, Sigs	IC-51249 Vinod Pillai, Int
IC-51206 Sumeet Sharma, AC	IC-51250 Ashim Kalra, EME
IC-51207 Nischal Sood, AD/Arty	IC-51251 Santosh Kumar Mishra, AOC
IC-51208 Sanjay Jaggi, ASC	IC-51252 Ashutosh Kumar Singh, Inf
IC-51209 AP Arul, Sigs	IC-51253 Narendra Kumar, Arty
IC-51210 Neeraj Gupta, Inf	IC-51254 Vineet Dwivedi, AOC
IC-51211 Deshpande Vikrant Suresh, Inf	IC-51255 Rajesh Singh, Arty
IC-51212 Man Mohan Singh, ASC	IC-51256 Jaiveer Singh, ASC
IC-51213 Sachin Sharad Kulkarni, Inf	IC-51257 Harish Kumar Sethi, AC
IC-51214 Ajay Kumar Ahuja, Inf	IC-51258 Pratap Singh Jouhal, Inf
IC-51215 Satish Kumar, Arty	IC-51259 Inderjeet Singh Mann, ASC
IC-51216 TV Pradeep Kumar, Inf	IC-51262 Sanjay Kumar, AVN/Corps
IC-51219 Ashok Kumar, Arty	IC-51263 Dinesh Kumar Tyagi, AOC
IC-51221 Anil Pandit, AC	IC-51265 Vinod Kumar Pant, AOC
IC-51222 Rajnish Gambhir, Arty	IC-51266 Vijay Kumar Singh, AOC
IC-51223 Ranjan Gupta, Arty	IC-51267 Akhilesh Kumar, Inf
IC-51224 Deepak Ranjan Rout, Int	IC-51268 Ravi Yadav, AC
IC-51225 Sumant Rudra, ASC	IC-51269 Parminder Singh, Arty
IC-51226 Sushil Chandra Choudhary, Inf	IC-51270 Saurabh Jain, EME
IC-51227 Bansal Nilesh Chander, Arty	IC-51271 Manish Gupta, Inf
IC-51228 Jasbir Singh Dewan, AD/Arty	IC-51273 Amarjeet Vasdev, ASC
IC-51229 Kuldeep Singh Kalsi, Inf	IC-51274 Joginder Singh, M/Inf
IC-51230 Rajesh Joy Vivian Onol, Arty	IC-51275 Remala Sreekant, Arty
IC-51231 Atulya Bamzai, EME	IC-51276 Harpreet Singh Kalia, Inf
IC-51232 Ashish Kumar, Inf	IC-51277 Zubin Bhatnagar, Inf
IC-51234 Tavinder Jit Singh Thind, Inf	IC-51280 Manish Mishra, Inf
IC-51235 Sameer Singh Chandel, Inf	IC-51282 Mahecha Dharamveer, Inf
IC-51236 Gurbir Singh, Arty	IC-51283 Navnit Singh Khera, ASC
IC-51237 Abdul Hameed, Inf	IC-51284 Dhruv Chaudhary, EME
IC-51238 Dam Bahadur Gurung, Inf	IC-51285 Om Prakash Jangid, Arty
IC-51239 Anil Yadav, AD/Arty	IC-51286 Jagmit Singh, AC
IC-51240 Salil Seth, Mech/Inf	IC-51289 Laxmi Kant Aggarwal, Arty
IC-51241 N Prasana Venkatesvaran, Arty	IC-51290 Ashim Kalra, AOC

IC-51291 Salash Uniyal, Arty	IC-51336 Vikrant Lakhanpal, Sigs
IC-51292 Shekhar Gupta, Inf	IC-51337 Bhaskar Gupta, Arty
IC-51293 Sandeep Sharma, EME	IC-51338 Dharmendra Yadav, Arty
IC-51294 Ravinder Singh Nandal, Inf	IC-51341 Jose Abraham, Inf
IC-51295 Daniel Lotzem, M/Inf	IC-51342 Digvijay Pal Singh Yadav, Inf
IC-51296 Tallapaneni Sreenivasulu, Inf	IC-51343 Manoj Kumar Sharma, AOC
IC-51297 Arun Kumar Sharma, Arty	IC-51344 Rajesegharan MC, Int
IC-51298 Pramod Singh, Arty	IC-51345 Sudip Mukherjee, Arty
IC-51299 Somnath Gupta, Arty	IC-51346 Shekhar Arora, AC
IC-51300 Romil Sharma, Inf	IC-51347 Harbir Singh Pannu, AC
IC-51301 Jintendra Kumar Malik, Inf	IC-51348 Sanjay Chaudhary, EME
IC-51302 Anil Tahlan, Inf	IC-51350 Anurag Yadav, Inf
IC-51303 Sumil Pant, inf	IC-51351 Vijayan MP, Inf
IC-51304 Sanjeev Singh, Inf	IC-51352 Ajay Pandey, ASC
IC-51305 Ashok Manocha, AOC	IC-51353 Vijay Singh, inf
IC-51306 Rahul Bhargava, EME	IC-51354 Thangjam Homoswar Luwangcha, Inf
IC-51307 Monon Rajesh Erekkath, Sigs	IC-51355 Rajendra Manik Deotale, ASC
IC-51308 Zulfagar Hussain Zaka, AD/Arty	IC-51356 Samir Bhalla, Sigs
IC-51309 Sanjay Bhardwaj, Arty	IC-51357 Ajay Unniyal, Inf
IC-51310 Hari Singh Bisht, Sigs	IC-51359 Gurvinder Hazooria, Arty
IC-51311 Animesh Sharan, AC	IC-51360 Bhisham Prashar, ASC
IC-51312 Umman Koteswara Rao, ASC	IC-51361 Maneesh Basera, AOC
IC-51313 Jagdeep Singh Mann, Arty	IC-51362 Veeresh M/Inf
IC-51314 Navtej Singh Kaisey, Arty	IC-51363 Rajive Goyal, AOC
IC-51317 Aditya Choudhary, Inf	IC-51364 Om Prakash, Inf
IC-51318 Ravinder Singh, Inf	IC-51365 Neeraj Sharma, AD Arty
IC-51319 Gurav Kiran Kashiram, Inf	IC-51366 Nardeep Singh Bhasin, Inf
IC-51320 Virender Singh, Inf	IC-51367 Kaushik Chakraborty, EME
IC-51321 Amit Saxena, ASC	IC-51368 Gaurav Mathur, Arty
IC-51322 Manish Rauthan, Inf	IC-51369 Prashant Nakra AC
IC-51324 Sanjay Pathak, ASC	IC-51370 Sattigiri Jitendra Pandurang, Int
IC-51325 Neil John, AC	IC-51372 Paras Mehra, Inf
IC-51327 Rajiv Dutta, Arty	IC-51373 Amal Gautam, AD Arty
IC-51328 Vivek Kochhar, Inf	IC-51374 Milind Shyamsunder, Sigs
IC-51329 Sanjay Kumar Singh, EME	IC-51375 Jeewan Rawal, Inf
IC-51330 Ripudaman Singh, M/Inf	IC-51376 Hariotn Singh Rathore, Arty
IC-51331 Anrit Paul Singh Sandhu, ASC	IC-51378 Shubhajeet Sircar, Engrs
IC-51332 Gautam Das, AD/Arty	IC-51379 Alok Kumar, AOC
IC-51333 Om Prakesh, Inf	IC-51381 Amrender Jit Singh, AD' Arty

IC-51382 Ramjee Adibhatla, Arty  
 IC-51383 Jitender Singh Bath, Inf  
 IC-51384 Kota Rama Krishna, Inf  
 IC-51385 Akhil Agarwal, Sigs  
 IC-51387 Birendra Singh Gahiawat, Inf  
 IC-51388 Anurag Chaudhari, ASC  
 IC-51389 Shiv Mangal Mishra, Sigs  
 IC-51390 Sandeep Srivastava, AC  
 IC-51392 Darshan Singh Parmar, Arty  
 IC-51393 Sombit Ghosh, Inf  
 IC-51394 Rajeev Kumar Sadana, Inf  
 IC-51400 Ashok Kumar Sharma, AEC  
 IC-51408 Nabarun Roy, AEC  
 IC-51417 Dalpat Singh Rathore, MF  
 IC-51418 Praveen Kumar Sharma, AEC  
 IC-51419 Surendra Singh Thakur, AEC  
 IC-51440 Kapil Dev Koushal, AEC  
 IC-51443 Rahul Sharma, AEC  
 IC-51466 Vir Kumar Bhat, AEC

—13 Jun 2005

IC-53067 Sandeep Sharma, EME  
 IC-53068 Anil Sen, Engrs  
 IC-53070 R Balasubramanian, Engrs  
 IC-53071 Shajwal Arun Shankar, Sigs  
 IC-53072 S Gopikrishan, Engrs  
 IC-53073 Suresh G, EME  
 IC-53074 Rajeshwar Singh Ahlawat, Engrs  
 IC-53075 Gurmeet Singh, Engrs  
 IC-53076 Vikram Vijay Suri, EME  
 IC-53077 Indraneel Ramnathkar, Engrs  
 IC-53078 Ashish Khare, EME  
 IC-53079 Ajay Dhawan, EME  
 IC-53080 Sibdas Bhattacharjee, EME  
 IC-53081 Tejinder Pal Singh, EME  
 IC-53083 Manish Pathak, Engrs  
 IC-53085 Sandeep Vohra, Sigs  
 IC-53087 Hemant Kumar Dave, Engrs  
 IC-53091 Raghu Kumar, EME  
 IC-53092 Manoj Kumar AV, EME

IC-53093 Randeep Singh, Engrs  
 IC-53094 Suresh Eshwara, Engrs  
 IC-53095 Jatinder Pal Singh, Engrs  
 IC-53096 Puneet Kumar Arora, Sigs  
 IC-53098 Sanjay Kumar Nayak, EME  
 IC-53101 Amini Jigarbhai Nareshbhai, EME  
 IC-53103 Rajshekar AS, Sigs  
 IC-53104 Pankaj Singh, Engrs  
 IC-53105 V Samuel Prakash, Engrs  
 IC-53106 Vikas Tripathi, Engrs  
 IC-53107 Karande Sanjeev Kumar Vishwas Rao, EME  
 IC-53113 Suresh S, EME  
 IC-53115 Sudhir PR, Sigs

—14 Jun 2005

## PERMANENT COMMISSION (SPECIAL LIST)

Maj to Lt Col

Sl. No., Name and Arm  
 2786 Anil Kumar, SL RO  
 2790 Venugopalan M Nhaloor, SL RO  
 2795 Rattan Singh, SL RO  
 2796 Amrik Singh Bajwa, SL RO  
 2800 CL Bhongotra, SL RO  
 2825 CTK Marakkar, SL ER  
 2835 KC Grover, SL IEM  
 2862 Raj Singh, SL TOT  
 2892 LS Bajetha, SLER  
 2918 Surendran MN, SL RO  
 2924 VR Kutty, SL RO  
 2926 IPS Subbu, SL RO  
 2929 RS Sangwan, SL RO  
 2931 NA Jabbar, SL RO  
 2932 Mohinder Kumar, SL RO  
 2933 AR Panwar, SL RO  
 2934 Satya Pal Singh, SL TEO  
 2944 HS Bhullar, SL IEM  
 2953 KK Madaiha, SL ER  
 2954 Shinde Vishnu, SL ER  
 2985 Shreedhanran A, SL SA  
 2986 BS Randhawa, SL SA  
 3005 LS Sisodia, SL QM

3011 Akal Singh, SL QM	3155 Sudhdev Sharma, SL RO
3012 ML Sharma, SL QM	3156 Sivakumaran Mannil, SL RO
3027 JS Guleria, SL RO	3157 Gian Prakash Sharma, SL RO
3029 KS Thapa, SL RO	3158 Surat Singh Punia, SL RO
3031 VP Thomas, SL RO	3159 Jasbir Singh Jaswal, SL RO
3035 RL Sharma, SL RO	3161 Balbir Singh, SL RO
3046 Jaggit Singh, SL TEO	3163 Ajit Singh, SL RO
3048 AP Kumeri, SL ER	3164 Jagdish Parasad Yadav, SL RO
3055 VRP Turiati, SL B/R	3168 Mani Ram Yadav, SL TEO
3058 Tarloohan Singh, SL TOT	3172 Rajendra Singh Mandrawal, SL AO
3059 Rathnakara Badiadka, SL TOT	3189 Pramod Kumar, SL B/R
3065 JS Rathore, SL CIPH	3192 Raja Ahuja, SL B/R
3076 RK Kandyil, SL SA	3193 Rajinder Nath Shangari, SL B/R
3078 Baleshwar Mishra, SL AOC	3194 Nambrat Palappatta Sankunny, SL B/R
3098 Raj V Singh Rana, SL QM	3195 Kalyan Bhanja, SL B/R
3099 Pratap Singh Shekhawat, SL QM	3196 Lavate Avanna Basu, SL B/R
3100 Mavuleti Satyanarayana Raju, SL QM	3198 Nirpal Singh Grewal, SL B/R
3103 Sat Paul, SL QM	3206 Ram Krishna Rai, SL E/M
3104 Purushothaman, SL QM	3210 Madan Gopal Garg, SL E/M
3106 Bachan Singh, SL QM	3217 Saty Prakash Mishra, SL TOT
3107 Ratan Mani Pradhan, SL QM	3220 Simanta Kumar Mukhopadhyay, SL TOT
3110 Hoshiar Singh, SL QM	3223 Tuser Kanti Bhgattacharya, SL TOT
3112 Ponniah Rajendran, SL QM	3245 A Gouro Kishore Singh, SL CIPH
3113 Sudarshan Singh Parmar, SL QM	3246 Sham Shivinder Paul Singh, SL CIPH
3125 Pr Vijayan, SL RO	3247 Hari Ram Sarohiwal, SL CIPH
3135 Ram Chander Pathak, SL RO	3248 Kishore Chandra Ghildiyal, SL CIPH
3137 Gian Chand Verma, SL RO	3249 Baljinder Singh, SL CIPH
3139 Jay Prakash Narain Jha, SL RO	3250 Subhodh Chandra Mandal, SL CIPH
3141 Mahinder Kumar Bral, SL RO	3251 Harbhajan Singh Grover, SL CIPH
3143 Sushil Giri, SL RO	3253 Rajendra Singh Dasila, SL CIPH
3144 Vasant Bakal, SL RO	3254 Abhe Ram Sulekhlen, SL CIPH
3145 Om Prakash, SL RO	3259 Ram Dayal Singh, SL AOC
3146 Hem Bahadur Gurung, SL RO	3260 Bhanwar Singh Rathore, SL AOC
3148 Ran Singh Rana, SL RO	3263 Shiv Nath Singh Tomar, SL AOC
3149 Jagdev Singh, SL RO	3265 Yogendra Pal Singh, SL AOC
3150 Harjit Singh Dhanjal, SL RO	3266 Keshar Singh Bhainsora, SL AOC
3151 Prem Lal Sharma, SL RO	3273 Nawal Singh, SL ISA
3152 Sudvinder Singh, SL RO	3276 Ganapathy Manakkayu Iyyankar, SL SA
3153 Jagdish Lal, SL RO	3279 Sudha Karan V, SL SA



3280 Purushothaman AN, SL SA  
 3281 Ajmel Singh, SL SA  
 3282 Steephen S, SL SA  
 3283 Sunny Thomas, SL SA  
 3296 Raghbir Singh, SL AE  
 3298 Kuttan Somasekharan Nair, SL AEC  
 3301 Surinder Singh, SL AEC  
 3302 Balbir Singh, SL AEC  
 3303 Ram Ashre Mishra, SL AEC  
 3305 Suri Krishan Ahlawat, SL AEC  
 3307 Venugopalan Nair P, SL AEC  
 3308 Parmesh Chandra Vashishtha, SL AEC  
 3309 Rajinder Singh Cheema, SL APTC  
 3310 Ramphal, SL APTC  
 3582 Jai Pal Singh, SL QM  
 3829 Sarbjeet Singh, SL QM  
 4657 JP Sinha, SL RO

—16 Dec 2004

## PERMANENT COMMISSION (SL)

Maj to Lt Col

02594 Narsi Ram Sharma, SL RO

—16 Dec 2004

CHANDER PARKASHI

Dy Director  
MS-8C

No. 599, dated 14th November 2005.—The President is pleased to make the following Promotions:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Brigadier

IC No, Rank, Name, Arm &amp; Date of Subs Rank

IC-24644 Col Kaistha Arun, 16 Cav—01 Mar 2002

IC-24672 Col Rangarajan ST, Engrs—05 Aug 2002 with seniority from 02 Mar 2002 without effect on pay and Pension.

IC-25069 Col Raina P, Arty—3 Mar 2002

IC-25167 Col Shekhwat BS, Engrs—01 Sep 2002 with seniority from 04 Mar 2002 without effect on pay and Pension.

IC-25266 Col Bishnoi DVS, ASC—05 Mar 2002

IC-25337 Col Kakar SK, EME—28 Oct 2002 with seniority from 06 Mar 2002 without effect on pay and Pension.

IC-27897 Col Malhotra LM, EME—07 Mar 2002

IC-27899 Col Ganesham P, EME—01 Jan 2003 with seniority from 08 Mar 2002 without effect on pay and Pension.

IC-32132 Col Gурpal Singh, Punjab—09 Mar 2002

IC-32171 Col Phaugat RS, Adarty—10 Mar 2002

IC-32388 Col Mehrotra HC, SM, Engrs—01 Nov 2002 with seniority from 11 Mar 2002 without effect on pay and Pension.

IC-25535 Col Rai NK, Arty—12 Mar 2002

IC-25553 Col Velu Ravindet, Madras—13 Mar 2002

IC-25618 Col Kapoor Pradeep, Engrs—14 Mar 2002

IC-25651 Col Mishra S, Punjab—15 Mar 2002

IC-25709 Col Sahi LF, SIKH—16 Mar 2002

IC-25732 Col Sandhu MJS, AOC—17 Mar 2002

IC-30290 Col Rao GM, Adarty—18 Mar 2002

IC-29736 Col Sandhu JS, JAKRIF—19 Mar 2002

IC-25088 Col Narula SS, SM, Punjab—20 Mar 2002

IC-25094 Col Grewal DS, 16 AR—21 Mar 2002

IC-30285 Col Babbar Subhash, Engrs—01 Sep 2002 with seniority from 22 Mar 2002 without effect on Pay and Pension.

IC-27561 Col Ghosh SK, Arty—30 August 2002 with seniority from 23 Mar 2002 without effect on pay and Pension

IC-25806 Col Arora RK, Punjab—24 Mar 2002

IC-25808 Col Chauhan DS, 84AR—25 Mar 2002

IC-25812 Col Ravishankar S, Engrs—01 Sep 2002 with seniority from 26 Mar 2002 without effect on Pay and Pension.

IC-25814 Col Chaudhary MM, Sikh—27 Mar 2002

IC-25815 Col Gurdeep Singh, Arty—28 Mar 2002

IC-25816 Col Bikram Singh, Sikh LI—29 Mar 2002

IC-25817 Col Mohan Harendra, Bihar—30 Mar 2002

IC-25818 Col Ahluwalia JPS, Arty—31 Mar 2002

IC-25822 Col Chakravarty PK, Arty—01 Apr 2002

IC-25824 Col Katoch DC, SM, Dogra—02 Apr 2002

IC-25825 Col Chetinder Singh, 7 Cav—03 Apr 2002

IC-25826 Col Ravi Khetarpal, EME—01 Feb 2003 with seniority from 4 Apr 2002 without effect on Pay and Pension.

IC-25827 Col Sethi JS, Arty—05 Apr 2002

IC-25829 Col Nirmal Jit Singh, Arty—21 Jun 2003 with seniority from 06 Apr 2002 without effect on Pay and Pension.

IC-25830 Col Sahi PS, Arty—07 Mar 2002

- IC-25836 Col Klair HPS, Guards—08 Apr 2002
- IC-25838 Col Chopra AK, AOC—09 Apr 2002
- IC-25839 Col Baljit Singh, Arty—10 Apr 2002
- IC-25841 Col Gurmeet Singh, Arty (GC)—11 Apr 2002
- IC-25842 Col Patil PR, Madras—12 Apr 2002
- IC-25845 Col Gupta RK, Engrs—01 Sep 2002 with seniority from 13 Apr 2002 without effect on pay and Pension.
- IC-25847 Col Rao BR, Guard—11 Apr 2002
- IC-25853 Col Kumar Satyendra, SM, 5GR—16 Apr 2002
- IC-25856 Col Sarup Anil, AOC—17 Apr 2002
- IC-25862 Col Sandhu HS, Arty—18 Apr 2002
- IC-25867 Col Nagarch Rajiv, 76 AR—19 Apr 2002
- IC-25872 Col Saha RS, Madras—21 Apr 2002
- IC-25873 Col Dhillon GS, ASC—22 Apr 2002
- IC-25876 Col Desender Singh, Sigs—23 Jan 2003 with seniority from 23 Apr 2002 without effect on pay and Pension.
- IC-25897 Col William Isaaks, Arty—25 Apr 2002
- IC-25901 Col Parnik KT, Raj Rif—25 Jan 2003
- IC-25902 Col Singh HP, Dogra—28 Apr 2002
- IC-25903 Col Pawan SS, Jat—29 Apr 2002
- IC-25904 Col Abina Vinod, Punjab—30 Apr 2002
- IC-25909 Col Sharma VK, Sigs—23rd Jan 2003 with seniority from 01 May 2002 without effect on Pay and Pension.
- IC-25912 Col Nair VS, SM, VSM, MLI—02 May 2002
- IC-25916 Col Popli PK, Arty—03 May 2002
- IC-25917 Col JS Sidhu, 50 AR—04 May 2002
- IC-25919 Col Brijpal Singh, Assam—05 May 2002
- IC-25921 Col Budhwar BS, Arty—06 May 2002
- IC-25929 Col Nair Suresh, Arty(GC)—07 May 2002
- IC-25957 Col Metha DK Raj, Rif—08 May 2002
- IC-25961 Col Nath Narendra, Arty—09 May 2002
- IC-25973 Col Nair GKB, VSM, Int—10 May 2002
- IC-25985 Col Thind JS, Arty(GC)—11 May 2002
- IC-25996 Col Sandip Sen, Kumaon—12 May 2002
- IC-25999 Col BM Ghungesh, Inf—19 Jan 2004 with seniority from 13 May 2002 without effect on pay and Pension.
- IC-27004 Col Sethi KS, Arty—14 May 2002
- IC-27009 Col Budhwar Padam Singh, 5 AR—15 May 2002
- IC-27013 Col Myne DK, Mahar—01 Jun 2002
- IC-27016 Col PD Wilfred, AOC—02 Jun 2002
- IC-27022 Col Lal AK, Punjab—03 Jun 2002
- IC-27026 Col Menon Prakash, Guards—04 Jun 2002
- IC-27028 Col Brar RS Mech, Inf—05 Jun 2002
- IC-27034 Col Jasbir Singh, VSM Dogra—06 Jun 2002
- IC-27038 Col Verma AM, Rajput—07 Jun 2002
- IC-27075 Col Gurmeet Singh, AOC—08 Jun 2002
- IC-27104 Col Singh Jag Mohan, Kumaon—09 Jun 2002
- IC-27106 Col Narula GS, AOC—01 Jul 2002
- IC-27119 Col Sethi HC, Arty—02 Jul 2002
- IC-27125 Col Kapoor Raj, AOC—03 Jul 2002
- IC-27127 Col Gulia KS, Sikh—04 Jul 2002
- IC-27153 Col Bhandal HS, AEC—18 Aug 2002 with seniority from 05 Jul 2002 without effect on pay and Pension.
- IC-32720 Col Surindar Singh, Garh Rif—06 Jul 2002
- IC-32765 Col Grewal JS, Punjab—07 Jul 2002
- IC-32771 Col Kunnath MC, Arty—08 Jul 2002
- IC-32437 Col Govadia DJ, Naga—10 Jul 2002
- IC-32443 Col Chadha TK, Mech Inf—11 Jul 2002
- IC-32449 Col Mahadevan A, Engrs—01 Jan 2003 with seniority from 12 Jul 2002 without effect on pay and Pension.
- IC-32455 Col Sandhal AL, SM Engrs—08 Sep 2002 with seniority from 03 Jul 2002 without effect on pay and Pension.
- IC-32456 Col Gagneja JK, Arty—14 Jul 2002
- IC-32460 Col CD Sawant, MLI—15 Jul 2002
- IC-32467 Col RS Panwar, EME—01 Mar 2003 with seniority from 16 Jul 2002 without effect on pay and Pension.
- IC-32470 Col Verma SC, 85 AR—17 Jul 2002
- IC-32488 Col Brijendra Singh, 49 AR—29 Jul 2002
- IC-32496 Col Sreeramlu S, Arty—01 Aug 2002
- IC-32498 Col Jamwal MS, Int—02 Aug 2002
- IC-32550 Col Malhotra RK, Jat—03 Aug 2002
- IC-32551 Col Kumar Vijay, Garh Rif—04 Aug 2002
- IC-32579 Col Bhalla Sandeep, AOC—05 Aug 2002
- IC-25833 Col Nair GM, 11GR—07 Aug 2002
- IC-30599 Col Singh BJ, Sigs—01 May 2003 with seniority from 08 Aug 2002 without effect on pay and Pension.
- IC-30601 Col Sheonan Singh, VRC Para—09 Aug 2002
- IC-30602 Col Mastinder Singh, Engrs—01 Jan 2003 with seniority from 10 Aug 2002 without effect on pay and Pension.

IC-30619 Col S Raghunathan, Sigs—01 May 2003 with seniority from 11 Aug 2002 without effect on pay and Pension.

IC-30631 Col Thorse DJ, Engrs—01 Apr 2002 with seniority from 01 Sep 2002 without effect on pay and Pension.

IC-30637 Col Kashyap VK, Sigs—04 Jun 2003 with seniority from 02 Sep 2002 without effect on pay and Pension.

IC-30645 Col S Balasubramanian, Sigs—01 Jun 2003 with seniority from 03 Sep 2002 without effect on pay and Pension.

IC-27194 Col Dhillon MS, Arty—04 Sep 2002

IC-33898 Col V Deogirikar, EME—01 Sep 2003 with seniority from 05 Nov 2002 without effect on pay and Pension.

IC-33899 Col CP Tiwari, Sigs—01 July 2003 with seniority from 06 Sep 2002 without effect on Pay and Pension.

IC-33028 Col Mahavir Singh, 20L—07 Sep 2002

IC-32716 Col Khati PCS, VRC, 1GR—08 Sep 2002

IC-32725 Col Tushir RS, GREN—09 Sep 2002

IC-32738 Col CM Harnal, EME—01 Nov 2003 with seniority from 10 Sep 2002 without effect on Pay and Pension.

IC-32728 Col Saxena Vijay, 41AR—11 Sep 2002

IC-32731 Col Mairdankar UM, 66AR—12 Sep 2002

IC-32745 Col Singh TT, ASC—13 Sep 2002

IC-32752 Col PV David, ASC—14 Sep 2002

IC-32759 Col Singh IM, 51AR—01 Oct 2002

IC-32767 Col Marwah HC, Arty—02 Oct 2002

IC-32792 Col Madappa NN, Mech/Inf—04 Oct 2002

IC-32809 Col Sandhu CS, Bihar—05 Oct 2002

IC-32860 Col Chaudhary SK, Kumaon—06 Oct 2002

IC-32885 Col Srivastava AK, JAG—07 Oct 2002

IC-27196 Col Chona VK, GREN—10 Oct 2002

IC-27198 Col Radhakrishnan, TG Madras—11 Oct 2002

IC-27200 Col Dalal JS, VRC, Garh/Rif—12 Oct 2002

IC-27203 Col Singh SK, 8GR—17 Oct 2002

IC-27204 Col Sharma VK, Punjab—24 Oct 2002

IC-27205 Col Bhatnagar Vinay, 5GR—29 Oct 2002

IC-27206 Col Singh SP, AOC—01 Nov 2002

IC-27208 Col SP Choudhary, EME—01 Nov 2004 with seniority from 02 Nov 2002 without effect on Pay and Pension.

IC-27211 Col Anil Kumar, Arty—05 May 2003 with seniority from 03 Nov 2002 without effect on Pay and Pension.

IC-27213 Col Kapur Vickas, Arty—04 Nov 2002

IC-27214 Col Thapa CB, VSM, 11GR—05 Nov 2002

IC-27215 Col Singh NK, 3GR—06 Nov 2002

IC-27216 Col Pande VK, 15AR—07 Nov 2002

IC-27217 Col Salil Prabhakar, Engrs—01 Apr 2003 with seniority from 01 Dec 2002 without effect on pay and Pension.

IC-27218 Col Chaturvedi IS, Arty—02 Dec 2002

IC-27225 Col Khosla Dilip, AOC—03 Dec 2002

IC-27235 Col Gulia VS, Rajput—05 Dec 2002

IC-27236 Col Tonk SS, GREN—06 Dec 2002

IC-27238 Col Dinesh Khatri, EME—01 Dec 2003 with seniority from 07 Dec 2002 without effect on pay and Pension.

IC-27241 Col Mitra A, Arty—08 Dec 2002

IC-27247 Col Goswami V, Garh/Rif—12 Dec 2002

IC-27253 Col AK Dhawan, Sigs—01 Nov 2003 with seniority from 30 Dec 2002 without effect on pay and Pension.

IC-27256 Col Panjekar PC, VSM, Mech/Inf—01 Jan 2003

IC-27258 Col Rajinder Singh, SM, Mech/Inf—02 Jan 2003

IC-27262 Col Kumar Parmeshwar, Arty(GC)—03 Jan 2003

IC-27264 Col Soneja AC, VSM, Jak/Rif—04 Jan 2003

IC-27265 Col Nair BV, Arty—05 Jan 2003

IC-27269 Col Sengupta SS, Engrs—01 Apr 2003 with seniority from 06 Jan 2003 without effect on pay and Pension.

IC-27277 Col Ahlawat SS, AC—07 Jan 2003

IC-27285 Col Vinay Sagar, EME—01 Feb 2004 with seniority from 08 Jan 2003 without effect on pay and Pension.

IC-27288 Col Gokhale SG, Arty—09 Jan 2003

IC-27289 Col Gadre AH, Arty—10 Jan 2003

IC-27295 Col Oberoi Rajan, VSM, 11AR—12 Jan 2003

IC-27297 Col KA Cariappa, Sigs—01 Nov 2003 with seniority from 13 Jan 2003 without effect on pay and Pension.

IC-27304 Col Thapa CS, 48AR—14 Jan 2003

IC-27314 Col Gulati AK, 47AR—15 Jan 2003

IC-27316 Col Kumar BU, Arty—16 Jan 2003

IC-27321 Col Oberoi KJS, SM, Punjab—17 Jan 2003

IC-27325 Col R Kochhar, SM, VSM, EME—01 Jan 2004 with seniority from 18 Jan 2003 without effect on Pay and Pension.

IC-27338 Col NB Patel, Engrs—20 Jan 2003

IC-27345 Col Dravid Arun, ASC—01 Feb 2003

IC-27352 Col Butter MS, Arty(GC)—02 Feb 2003

IC-27367 Col Deepak Grover, Engrs—01 Feb 2004 with seniority from 03 Feb 2003 without effect on pay and Pension.

IC-27426 Col Meprath WG, ASC—04 Feb 2003

IC-27467 Col James OA, EME—01 Jan 2004 with seniority from 05 Feb 2003 without effect on pay and Pension.

IC-27470 Col Ashok Kumar MC, Rajput—06 Feb 2003

IC-27474 Col SK Yadav, EME—01 Feb 2004 with seniority from 07 Feb 2003 without effect on pay and Pension.

IC-27488 Col Wason AK, Engrs—01 Apr 2003 with seniority from 08 Feb 2003 without effect on pay and Pension.

IC-30950 Col Devendra Prasad, Sigs—01 Nov 2003 with seniority from 09 Feb 2003 without effect on pay and Pension.

IC-30956 Col NV Pande, Sigs—01 Nov 2003 with seniority from 10 Feb 2003 without effect on pay and Pension.

IC-30958 Col RS Wankhade, EME—06 Feb 2004 with seniority from 11 Feb 2003 without effect on pay and Pension.

IC-30959 Col Sehgal PK, Engrs—01 Apr 2003 with seniority from 12 Feb 2003 without effect on pay and Pension.

IC-30962 Col BS Sidhu, EME—01 Feb 2004 with seniority from 13 Feb 2003 without effect on pay and Pension.

IC-30963 Col SW Sarwate, EME—01 Mar 2004 with seniority from 14 Feb 2003 without effect on pay and Pension.

IC-30977 Col BB Sharma, Engrs—02 May 2003 with seniority from 15 Feb 2003 without effect on pay and Pension.

IC-30978 Col Harbir Singh, EME—01 Apr 2004 with seniority from 16 Feb 2003 without effect on pay and Pension.

IC-30986 Col S Dasgupta, Sigs—01 Nov 2003 with seniority from 18 Feb 2003 without effect on pay and Pension.

IC-30988 Col GD Tandon, Sigs—01 Nov 2003 with seniority from 19 Feb 2003 without effect on pay and Pension.

IC-27580 Col Kant Shruti, AEC—04 Mar 2003 with seniority from 20 Feb 2003 without effect on pay and Pension.

N. MARIAPPAN  
lt. Dir/MS(X)

#### ARMY BRANCH

No. 600, dated 11th November 2005— The President is pleased to retire the undermentioned officers on attaining the age of superannuation as indicated against each:—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

Maj Gen Ashok Kumar (MR-02059Y)/AMC/PC 30 Nov 2004 (AN)

Brig RK Sood, SM (MR-03358K)/AMC/PC 31 Oct 2004 (AN)

Brig GLN Swamy, VRC (MR-03276F)/AMC/PC 31 Oct 2004 (AN)

Brig AP Das (MR-04451X)/AMC/PC 30 Nov 2004 (AN)

Brig RC Behera (MR-03818A)/AMC/PC 31 Oct 2004 (AN)

Col SK Sayal (MR-02585X)/AMC/PC 31 Dec 2004 (AN)

Col (Mrs) HK Kheterpal (MR-04450P)/AMC/PC 30 Nov 2004 (AN)

Col YS Srinath (MR-03490K)/AMC/PC 31 Oct 2004 (AN)

Col JK Chopra (MR-05686W)/AMC/PC 30 Nov 2004 (AN)

Lt. Col Om Prakash (NTR-16378W)/AMC (NT)/PC 30 Nov 2004 (AN)

RAJESH KAMRAN, Brig.  
Dy. DGAFMS (Pers).

#### ARMY BRANCH

No. 601, Dated 10th November 2005—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from the army service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons:—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

IC-16969 Col Luthra Kirti Krishan, EME—12 Sep 2000 (AN)

IC-31664 Lt Col CVSS Satish, EME—09 May 2001 (AN)

IC-31221 Col Mrigendra Kumar, EME—07 Jan 2004 (AN)

IC-37737 Maj Rajinder Singh, AC—15 Jan 2004 (AN)

IC-36131 Col Basavaraju Vishnu Mohan, EME—16 Apr 2003 (AN)

IC-34674 Col Om Prakash Mishra, EME—13 Mar 2004 (AN)

IC-25937 Col Ravinder Pal Singh Brar, AC—08 Feb 2004 (AN)

IC-27159 Col Kanwar Vijay Singh, EME—20 Feb 2003 (AN)

IC-30953 Col Harinder Pal Singh, EME—30 Sep 2003 (AN)

IC-31325 Lt Col Pushpendra Singh, AC—30 Sep 2001 (AN)

IC-29823 Col Ranbir Singh, EME—30 Oct 2001 (AN)

IC-34358 Lt Col AK Sachdeva, Inf—30 Jun 2001 (AN)

IC-33376 Col Sadananda Shankar Nayak, Inf—28 Jun 2004 (AN)

IC-35665 Lt Col Jayant Krishna, Inf—26 Oct 2003 (AN)

IC-39895 Maj RS Malik Inf—01 Mar 2004 (AN)

IC-25589 Col Berry Rakesh, Inf—03 Apr 2001 (AN)

IC-37543 Lt Col Gerard Lobo, Inf—16 Dec 2002 (AN)

IC-38299 Lt Col Neville Hugh Gracias, Guards—09 Mar 2004 (AN)

IC-23802 Col Jagdamba Prasad Chandola, Inf—09 Jan 2002 (AN)

IC-19642 Col Mahendra Singh, Inf—14 May 2001 (AN)

IC-27995 Col Soni Naresh Kumar Dherumal, Inf—03 Oct 2001 (AN)

IC-34798 Lt Col Anil Alagh, M/Inf—07 Mar 2001 (FN)

IC-34791 Col R Malik Inf—31 Oct 2003 (AN)

IC-35164 Lt Col Ryan Peter Lobo, Inf—01 Nov 2003 (FN)

IC-27824 Lt Col Mukesh Sethi, Inf—25 Aug 2004 (AN)

R. K. SHARMA  
Joint Director  
MS/PR